

2010 Before -Satpanth Manuscript 10 (160)







This book has;
1) Some missing pages
2) Some pages may not be in order
Some of the pages in the original book have become loose and are not in order. The scan of this book is in the order in which the pages are found in the book.

છે, કે ઈતનેમે હઝરત જીબરઈલ અલેહિસ્સલા
ઓર યેહ દોઆ લાએ, હઝરત સલ્લાહો અ
સીખાયે આ હઝરત સલલાહો અલેહે વસલ
રઇલસે પુછા કે યે દોઆ આપને કીસ્સે
ઇલસે, હઝરતને ફરમાયા મીકાઇલને કીસ્સે
સરાફીલસે, હઝરતને ફરમાયા ઈસરાફીલને કી
લે ઈઝરાઇલસે. હઝરતને ફરમાયા ઉન્હોને કીસ્સે સાખા
જવાબ દીઆ કે ઉન્હોને અરશે આઝમકે આસપાસ લીખા
હુઈ દેખા ઓર વહાંસે સીખે. ફીર હઝરત જીબરઈલ અમી-
ન અલેહીસ્સલામને ફરમાયા યા મોહમ્મદ જો કોઇ શખ્સ
મરદ યા ઓરત તુમહારી ઉમ્મતસે ઇસ દોઆએ ગનજુલ
અરશકો પઢહેગા અલ્લાહો તઆલા ઉસકો તીન ચીઝ અ
પની કરામતસે અતા ફરમાવેગા, અવલ ઉસકે કસબ
કારમેં બરકત દુસરી ગએબસે રોજી પોંહોંચાવેગા.
કો કોઈ બશર નાજાનેગાકે કહાંસે લાતા અઓર
એ અઓર રોઝા કાહાંસે મીલતી હએ, તીસરે

ખુદાકો હ... મે ફરતા ... અઓર જો કોઇ
અલ્લાહ તઆલાકે નામોંકો યાદ કરે યા પડહે અઓર
ઉસપર અમલ કરે તો દાખીલ હોગા વોહ શખ્સ
બહીશતમેં.

દોઆ.

ઓર યે દુઆ વબાકે દીનોમે પઢના ઓર લીખકર
દરવાજેપે લગાદેના તો અસર વબાકા દફા હોવેગા ઓર
આફીયત રૂં દીખાવેગી દુઆ હૈ.

લીખમસતુન ઉત્રી બેહા હરસુલ વબાઇલ હાતેમા
અલમુસ્તફા વલમુરતઝા વબનાહુમા વલ ફાતેમા
યે દુઆ દરવાઝોંકે ચૌખટોંપર લગાનેકી યે
મુતબરરીક હૈ.

બીસમીલ્લા હીર રહેમા
રૂહિ સ્લામ

યાદાકે :
વબાઆ અઝ

અલાયા યા અલાયા અદરાક

દરૂદે હઝારા.

અલ્લાહ હુમ્મા સલ્લેઅલા મોહમ્મદીન વ અલા આલે મોહમ્મદીન બે અદદે કુલ્લે ઝર્રૈતીન મે અતે અલફા અલફા મરરતીન અલ્લાહ હુમ્મા સલ્લેઅલા મોહમ્મદીન વ અલા આલે મોહમ્મદીન વ બારીક વસ્સલમ.

દુવાએ ચહલકાફ.

કફાકા રબ્બુકા કમયકફાકા વાકિફતન ફીફકા ફ્રોલા કરેકી મનકલેકા તફરો કરરીન કકરૂલ કફા માબી કફા ટબ્નન કલુકલુકીન કલેકા કફા ... કાના મનયાહકી કૌકબલ કલ...

હેનાનેકા, અઔર ... ગુલામ આઝદ દશ હઝાર મદરસે તયાર કરનેકા, અઔર ... બીના કરનેકા સવાબ પડહને પડહાને હોગા. યા મુહમ્મદ અગર સાત આસમા- ... ઝમીન કો કાગઝ બનાવે, અઔર તમામ ...કે કલમ કરે, અઔર તમામ ઇનસાન ... અઔર ફીરશ્તે મશરીકશે મગરીબ તક તા ...જ કયામત સવાબ ઈસ દોઆકા લીખે તોભી તમામ ...ન લીખ સકે, યા મુહમ્મદ જો કોઈ ઈસ દોઆએ ગંજુલઅ- રશકોપડહેગા, યા લીખકર અપને પાસ રખેગા તો ઉસ બંદેપર અલાહો તઆલા નઝર રહમતકી સવ બાર કરેગા અગર વો લડાઈ પર જાવેગા તો ફતહમંદ હોકર સાથ અ- ...ને અલાહો તઆલાકે સલામત અપને ઘરમેં આવેગા, અ- ... મુસાફર હોગા તો શહી સલામત સફરસે અપને ઘર- ...વેગા, અઔર તલવાર, ગોલી, યા ખંજર યા તીર, ... કોઇ અઔર હથીયાર ચલાવેગા તો કારગત ન- ...હમ્મદ જો કોઈ ઈસ દોઆકો પડહેગા યા લી- ...ખેગા તો ઉસકો જાદુકા અસર અઔ- ...ર અઔર શૈતાનકે સરસે અઔર

અગર જંગલમેં રહા ભુલા ...
બદ બખ્ત હોગા તો બખ્તાવર હોવેગા. નકલ
એક રોઝ મદીને મુનવ્વરામેં કોઈ ચોર પકડા ગયાથા,
હાકિમને ઉસે ગરદન મારનેકા ઈશારા કીયા, કયું કે વોહ
બડા તકસીરવાર થા, જલ્લાદને ઉસપર તલવારકે કઈ વાર
કીએ મગર એક બાલભી ન કટી તબ ડુબાનેકા હુકમ દીયા
તો ડુબાભી નહી તબ જલાનેકા હુકમ કીયા તો જલાભી
નહી તબ હાકમને ઉન ચોરકુ પુછા કે અએ ચોર સચ કહે
જો કિસી ચીઝને અસર નકીઆ યેહ કયા સબબ હએ?
જાદુગર હએ? યા વલી અલાહ હએ? ચોરને કહા અગર
તકસીર મઆફ હો તો કહું; કહા મઆફ હએ, તબ ચોરને
જવાબ દીઆ કે મએં જાદુગર નહીં હું, મગર મેરે સાથ
એક તાવીઝ હએ દોઆએ ગંજુલ અરશકા, અઓર મએ
વોહ દોઆ પડહતાહું ઉસકી બરકતસે ખુદાએ તઆલાને
ઈન સબ આફતોંસે બચાયા, અઓર પનાહમે રખા. ફિર
હાકમને ઉસ ચોરકો છોડ દીયા, અઓર ઉસસે દોઆએ
બુઝરગવારકો લેલીઆ ઓર અપને પાસ રખા ઓર હમેશાં
પડહતા રહેતાથા, ... ઓર ઈસ દોઆએ મોઅઝમ મુકરમકી
ખાસીયતે બહોત હએં ઉનમેંસે મુખતસર કરકે ઈસ જામેં

... નાઝીલ હુવે,
... લેહે વસલ્લમકો
... મને હઝરત જીબ-
... ખા? કહા મીકા-
... સીખા? કહા ઈ-
... સે સીખા? બો

... અલાયા વા અલાયા અહરાક

દરૂદે હઝારા.

અલ્લાહ હુમ્મા સલ્લેઅલા મોહમ્મદીન વ અલા આલે મોહમ્મદીન બે અદદે કુલ્લે ઝર્રતીન મે અતે અલફા અલફા મર્રતીન અલ્લાહ હુમ્મા સલ્લેઅલા મોહમ્મદીન વ અલા આલે મોહમ્મદીન વ બારીક વસ્સલમ.

દુવાએ ચહલકાફ.

કફાકા રબ્બુકા કમયકફાકા વાકિફતન કીફકા કોલા ...મનકલેકા તક્રશે કરરીન કકરૂલ કરકી ...ન્નન કલુકલુકીન કલેકા કફા માબી કફા ...ઓકબનકાના મનયાહકી કૌકબલકલ...

...હિનાનેકા, અઔર દસ હઝાર ગુલામ આઝદ દશ હઝાર મદરસે તયાર કરનેકા, અઔર ...ક બીના કરનેકા સવાબ પડહને પડહાને ...હોગા. યા મુહમ્મદ અગર સાત આસમા... ...ઝમીન કો કાગઝ બનાવે, અઔર તમામ ...કે કલમ કરે, અઔર તમામ ઇનસાન ...અઔર ફીરશ્તે મશરીકશે મગરીબ તક તા ...જ કયામત સવાબ ઈસ દોઆકા લીખે તોભી તમામ ન લીખ સકે, યા મુહમ્મદ જો કોઈ ઈસ દોઆએ ગંજુલઅ-રશકોપડહેગા, યા લીખકર અપને પાસ રખેગા તો ઉસ બંદેપર અલાહો તઆલા નઝર રહમતકી સવ બાર કરેગા અગર વો લડાઈ પર જાવેગા તો ફતહમંદ હોકર સાથ અ-મ્નને અલાહો તઆલાકે સલામત અપને ઘરમેં આવેગા, અ-... મુસાફર હોગા તો શહી સલામત સફરસે અપને ઘર-...વેગા, અઔર તલવાર, ગોલી, યા ખંજર યા તીર, ...કોઇ અઔર હથીયાર ચલાવેગા તો કારગત ન-...હમ્મદ જો કોઈ ઈસ દોઆકો પડહેગા યા લી-...ખેગા તો ઉસકો જાદુકા અસર અઔ-...ર અઔર શૈતાનકે સરસે અઔર

અગર જંગલમે રહા મુલા ...
બદ બખ્ત હોગા તો બખ્તાવર હોવેગા. નક...
એક રોઝ મદીને મુનવ્વરામેં કોઈ ચોર પકડા ગયાથા,
હાકિમને ઉસે ગરદન મારનેકા ઈશારા કીયા, કયું કે વોહ
બડા તકસીરવાર થા, જલ્લાદને ઉસપર તલવારકે કઈ વાર
કીએ મગર એક બાલભી ન કટી તબ ડુબાનેકા હુકમ દીયા
તો ડુબાભી નહી તબ જલાનેકા હુકમ કીયા તો જલાભી
નહી તબ હાકમને ઉન ચોરકુ પુછા કે અએ ચોર સચ કહે
કે તેરેકો કિસી ચીઝને અસર નકીઆ યેહ કયા સબબ હએ?
તું જાદુગર હએ? યા વલી અલાહ હએ? ચોરને કહા અગર
તકસીર મઆફ હો તો કહું; કહા મઆફ હએ, તબ ચોરને
જવાબ દીઆ કે મએં જાદુગર નહીં હું, મગર મેરે સાથ
એક તાવીઝ હએ દોઆએ ગંજીલ અરશકા, અઓર મએ
વોહ દોઆ પડહતાહું ઉસકી બરકતસે ખુદાએ તઆલાને
ઈન સબ આફતોંસે બચાયા, અઓર પનાહમે રખા. ફિર
હાકમને ઉસ ચોરકો છોડ દીયા, અઓર ઉસસે દોઆએ
બુઝરગવારકો લેલીઆ ઓર અપને પાસ રખા ઓર હમેશાં
પડહતા રેહતાથા, અઓર ઈસ દોઆએ મોઅઝમ મુકરમકી
ખાસીયતે બોહોત હએ ઉનમેંસે મુખતસર કરકે ઈસ જામેં

...સાહેબ...
...મ નાઝીલ હુવે,
...લેહે વસલ્લમકો
...મને હઝરત જીબ-
...ખા? કહા મીકા-
... સીખા? કહા ઈ-
...રો સીખા? બો

... લમ બદાન મુનવ્વરા કા ...
ચે, કે ઇત્તેનમે હઝરત જીબ્રઈલ અલેહિસ્લા...
ઓર યેહ દોઆ લાએ, હઝરત સલ્લાહો અ...
સીખાયે આ હઝરત સલલાહો અલેહે વસલ...
રઇલસે પુછા કે યે દોઆ આપને કીસ્સે ર...
ઇલસે, હઝરતને ફરમાયા મીકાઇલને કીસ્સે...
સરાફીલસે, હઝરતને ફરમાયા ઈસરાફીલને કી...
લે ઈઝરાઇલસે. હઝરતને ફરમાયા ઉન્હોને કીસ્સ સાખા...
જવાબ દીઆ કે ઉન્હોને અરશે આઝમકે આસપાસ લીખ...
હુઈ દેખા ઓર વહાંસે સીખે. ફીર હઝરત જીબ્રઈલ અમી-
ન અલેહીસ્સલામને ફરમાયા યા મોહમ્મદ જો કોઇ શખ્સ
મરદ યા ઓરત તુમહારી ઉમ્મતસે ઇસ દોઆએ ગનજુલ
અરશકો પડહેગા અલ્લાહો તઆલા ઉસકો તીન ચીઝ અ...
પની કરામતસે અતા ફરમાવેગા, અવલ ઉસકે કસબ...
કારમેં બરકત દુસરી ગએબસે રોજી પોંહોંચાવેગા.
કો કોઈ બશર નાજાનેગાકે કહાંસે લાતા અઓર ...
એ અઓર રોઝા કાહાંસે મીલતી હએ, તીસરે ...
મામ ઉસકે મફહુર અઓર ખ્વાર હો...
ખુનભી કીયા હોગી તો સાહેબ ખુ...

મગર જંગલમેં રહા મુલા
બદ બખ્ત હોગા તો બખ્તાવર હોવેગા. નકલ
એક રોઝ મદીને મુનવ્વરામેં કોઈ ચોર પકડા ગયાથા,
હાકિમને ઉસે ગરદન મારનેકા ઈશારા કીયા, કયું કે વોહ
બડા તકસીરવાર થા, જલ્લાદને ઉસપર તલવારકે કઈ વાર
કીએ મગર એક બાલભી ન કટી તબ ડુબાનેકા હુકમ દીયા
તો ડુબાભી નહી તબ જલાનેકા હુકમ કીયા તો જલાભી
નહી તબ હાકમને ઉન ચોરકુ પુછા કે અએ ચોર સચ કહે
કે કિસી ચીઝને અસર નકીઆ યેહ કયા સબબ હએ?
જાદુગર હએ? યા વલી અલાહ હએ? ચોરને કહા અગર
તકસીર મઆફ હો તો કહું; કહા મઆફ હએ, તબ ચોરને
જવાબ દીઆ કે મએં જાદુગર નહીં હું, મગર મેરે સાથ
એક તાવીઝ હએ દોઆએ ગંજુલ અરશકા, અઓર મએ
વોહ દોઆ પડહતાહું ઉસકી બરકતસે ખુદાએ તઆલાને
ઈન સબ આફતોંસે બચાયા, અઓર પનાહમે રખા. ફિર
હાકમને ઉસ ચોરકો છોડ દીયા, અઓર ઉસસે દોઆએ
બુઝરગવારકો લેલીઆ ઓર અપને પાસ રખા ઓર હમેશાં
પડહતા રેહતાથા, અઓર ઈસ દોઆએ મોઅઝમ મુકરમકી
ખાસીયતે બહોત હએં ઉનમેંસે મુખતસર કરકે ઈસ જામેં

સ
મ નાઝીલ
લેહે વસલ્લમ
મને હઝરત ઇબ
ીખા? કહા મીકા-
સીખા? કહા ઇ-
રો સીખા? ઓ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

५२

दुकडो रे॰ ॥२२॥ कुंजा रे मा
डपीप्यां धापी मारे मंतवां म
तोरे॰ अंतपर वतस्करान
रनी साध रे॰ पीपाआपी
दुकडो रे॰ ॥२३॥ कुंजा रे मा
डपडो धा आंसंपा कुपडे रे॰
अंतकुसतुरी नीजरापी
छोनीत रे॰ पीपा आपी दुकु
डो रे॰ ॥२४॥ कुंजा रे त्रीजी
पतनी आपीपारे प्रीसर्से
रे॰ तांतीजरे मा जीजलणतला

रीसद्रीसेनां आपे तां तीसी
जतां रे॰ अने नाकि रपातो
थासीनांन प्रांत्रीरे॰ पीपा
आपो द्रीफुडोरे॰ ॥ ६ ॥ फ्री
जारेपसं प्रफु आवी पीनती
फुरेरे॰ अने फुंपजा तंपीसी
जपीफुंनरे॰ पीपा आपो
द्रीफुडारे॰ ॥ ७ ॥ फ्रीनारेम
द्रीरंगीमानो फुमीत रापे
सीरे॰ तांफां तो मीससीमा
फीनोनाथरे॰ पीपा आपो

50

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

धाजुगुरुडारे॰ ॥३॥ कुंभार रे
स्वरूप पुखाधारे सती [illegible]
रुधर रेरे॰ [illegible] नेबापा [illegible]
[illegible] ने॥४ मी ना रेरे॰
पाश्रा आपी गुरुडारे॰
॥४॥ कुंभार रे [illegible] पा गुरु [illegible]
ती नी पा [illegible] पा श्री रे॰
श्रापणे नीपान [illegible]
[illegible] पं नी ना पी रे॰ पा
पाश्रा पी गुरुडारे॰ प
कुंभार रे सरी [illegible] पनांते

रखीपी श्रीरे॰ श्रींने घरे
पाछुरेश्रारपदेसनाश्रीश्रा
रने॰ पीपाश्रावेछुकडरे॰
गणापुंजारेनपुजेपीन
पसानांबेटरांरे॰ गा
रेफरपांडीसुपपुश्री
पीसरे॰ पीपाश्रावेछु
फुडारे॰ ।।२।। पुंजारे हथ
डामांहिंडा सघणीरडीरे॰
पापाश्रानश्रींमनेछुपं
नाश्रींनदरे॰ पीपाश्रा

रि॰ नारांणपरर्नन रखी श्रि॰
॥२४॥ हरीपरणीर्नेपारि
खसर्से॰ हरीत्रखी श्रांना
धातार रि॰ नारांणपरर्नन
रखी श्रि॰ ॥२५॥ सतगीर
खरे भाला श्री अर्खा ली श्राद्व
धाकखा लांघे धंभंढंभ
ज्ञार रि॰ नारांणपरनन
रखी श्रि॰ ॥२६॥ ००००००
श्री सतगुरखरे भापायाः॰
नारिफत फफर्खालिफिस

रि॰ नारांणपरनैनिरखीत्री॰
॥२०॥हरी तेप्यारकुरीडीती
लोलपुल॰हरी नै अनंत अ
पांपीपास रि॰नाराणपर
नैनरखी त्री॰॥२२॥हरी
परसंभुकुआरी नेपरण
स॰तारीपरं भालनला
सीप द्दरि॰ नाशांणपरनैन
रखीत्री॰॥२३॥आदि नद
पंथी नारांण नरपती॰
साहीप्पदि सआं भारथाप

रीनें सतीआं मंगल गाआं

रे॰ नारांणपरनें नरखी

आं॰ ॥ ७८ ॥ हरीनें नांनें लो

धाळ्डि तपस्यां॰ हरीनें परे

णान छे आगीयां पारे॰ना

रांणपरनें नरखीआं॰ ७९ ॥

हरीनें हरीअंद सरखा छा

णी आ॰ लांन मांहि हांसीनें

नेम्हारे रे॰ नारांणपरनेंन

रखीआं॰ ॥ ८० ॥ हरीनें नलें

सतपास रखां नां नीआ॰

हरीनें पांच पछ पीछे पांण

१०

॥७४॥ हरीने पाक्रीत पछे ं म
न लेहलिं॰ हरी नातिनत पुंहीन
ही पारसी॰ नार । पुंपर नेन नर
खीम्रि॰ ॥७५॥ हरीनि नां नेनां
न पुंहि म्रं तध पुं॰ हरी नी म
तानों हरखन भाक्री रि॰ नारां
पुंपर नेनर खीम्रि॰ ॥७६॥
हरी नि जोलदद्यां मां गाडम
डि॰ हरीने सर पाछे तपुंन
ही पार रि॰ नारां पुंपरनेन
रखीम्रि॰ ॥७७॥ हरीने म
तेनो भगत मीलीन डां॰ ह

नेरुकनेरीसरपाम्रेरे: नारे
धापरनेनरष्पीम्रे ॥७८॥
हरीनेपाम्रेतेमीलडीसी
अती: तेनातेनतूणीनहीपा
रहे: नारांधापरनेनरष्पीम्रे:
॥७९॥ हरीनेनांनेनांगतेहि
षुमिम्रली: हरीनेपीपाम्रे
सेश्रंतीरंगरे: नारांधाप
रनेनरष्पीम्रे: ॥८०॥ हरी
नेमीपंडीधीरीष्पंधाप
से: तांधांगुनरांमेलाषो
मारहे: मोरांधापरनेनरष्पाम्रे:

हरी ने दर्से आंगणी श्री वे
ठरि : नारांणपर ने नर श्री
श्री : ॥८॥ हरी ने कानें ते कू
डप्त टन नप्त धणि : हरी ने पे
रण पीतांबर सार रे : ना
रांणपर नै न र श्री श्री ॥ ८
॥९॥ हरी ने कू दर ती धी डा
श्री तर्से : हरी ने सींन रीस
णगार रे : नारांणपर ने न
र श्री श्री : ॥१०॥ हरी ने कु स
रीआंपा गा पे र णी : हरी

धर स्तल जोलो प्रः॥५॥ असर
सलोतीवसर सलोजीः प्रलेङ्गा
प्रः गङ्गनाअलो प्रः॥७॥ असर
सलोतीवसरसलोजीः प्रले
ङ्गा प्रः ङ्गरसः प्रलो प्रः॥८॥ अ
सर सलोतीवससर जीः
ङ्गा प्रः गङ्गनाअलो प्रः॥९॥
अ सर सलोतीवससलोजी
अलेङ्गाः प्रः भतारु लो
प्रलो ॥१०॥ अ सर सलोती
वस सलोजीः प्रलेङ्गा प्रः गन
अपत्नरी प्रलो प्रः॥११॥ अ सर
सलोतीवसर सलोजीः प्रलेङ्गा
प्रः स्तलपातलो प्रः॥१२॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

असी तरेः सा आ हेःाा के जे संहा ऊमे

राहेजरतः।। मांमदः मंसत रे ः सन सन सा

असे हेः वसस मः।। के हे ।। घसदरे दं

माजे मः।। यमकेर मः।। को पडे गा ।।

ओर पडन सके तो ।। अपने नजेकरे

।। तेजोंघा ता ला ।। ऊ मा अंजे मर्जा ।। आमंल नामोरे

लेजन वाला ।। फीर मा तां ... मकार माजा ।।

असद इ दजा हर खेड ः सादत डेः अदद खुदा

॥श्री रसरसलोतीव रसरसलोमा

॥श्री लेखा मा: मनो रतुलो मि:॥१३॥

॥श्री रसरसलोतीव रसरसलोमा॥श्री ले

खा मा: रसफवतुलो मि:॥१४॥श्री

रसरसलोतीव रसरसलोमा॥श्री लेखा

मा: मुनतुलो मि:॥१५॥श्री रसरस

लोतीव रसरसलोमा॥श्री लेखा मा

: रेमि जवलो मि:॥१६॥श्री रसरस

लोतीव रसरसलोमा॥श्री लेखा मा

: नुरलो मि:॥१७॥श्री रसरसलोती

व रसरसलोमा॥श्री लेखा मा: मा मि

मा दूररररुजुलो मि:॥१८॥श्री रस

रसलोतीव रसरसलोमा॥श्री लेखा

मा: रसनिपमातततमन॥१९॥श्री रस

रसलोतीव रसरसलोमा॥श्री लेखा मा

: रसनिपमालो मीजवलेखारसर

॥२०॥

[illegible]

1

[illegible]

नेइ ईर्षदान व्योरीगाहे व्यनो उमतभाषी।

व्यांदइद्द व्यदुव्यरने। पडरी व्यनेपेडीनां।

शइतो। लप्योनपोतानोपारीरोप्यरी। तो

प्युदातालांतं। व्यंदानो। पुनपाप। लप्यना।

रांइरगीनोनं। उइनइरगीइ। व्यांदइद्द। पड

नारांमेरांप्यदानसेटलोरीपाप्यधरीइ।

रीपालाप्य। इरांनव्योरीगाहेप्य। नादर

रीनइरानाइलपीरी। व्यनेपलोप्युदा

चालांव्येइरभापुइ। बनेदइद्द। नइप्यर

पडरीतेनें। उ दाडांनो। चाणरीनरीाटइरा

दांलारीरी। व्यनेबली। तेनापारीते पप्युट

...ताइव्यरे। मेहेल। मान...

आंहदेहमां रडे... ...मन.न.मनतां...
तेने अवतरथासीदे मारे मोने आंदाडे छे.
नेतेने जनतमांथां तेनांनेमेरतापेलजोसे.
नेआंहदेह.जेमोमेनपडीता.तनीप
अर.दुरीता.नवीदीहेअनदुरीतारे.
नवीदीहेअ.वाडअ्युरीथारी:नेवली
कुहेछे अने.पडनारो मोमेनमारो छे.
नेजेकोईमोमेन.पोतानांहीलजमनथी
आंहदेहपडीता.लवीनेपोतानीथा
नीपारीरो अरीता.तेअन हान.ने
वीदीहेअ.रीमएगामे हीहारदेरी:ने
जेकोईमोमेन.आंहदेहनेपाये.तोगड
...वांरी करपारनोरातेपायेपु.त

६ पीरीत थीपायुं छे. आर घडी रात गया.
पछी. नायुं ने अंतर. अरी आघी रीरीर
परलगा पीने पडपुः ने पली. ये हरहरीात.
हेरां पडीने. तेन्हे डाणां. सुघरीहे ने ओपा.
आंनां रीडे तारवआंन पोताना मोरीडे ने
डीने सुघरहे तो. तेनी रात ने आरीशाहेप
नां हीघार. पारी: अन पली अ हरहेप
नारा. नामन मेमरी मरी. तो. ते बोले
पारीा ह हरीता. मरी. हुरीना. आव
सेः ने पली. आडारी ने पातालनां पाण
आपरी. ने तेनां नाल परनी भालहड
री. ने हेसामतना हाडांरे घी. तेनो डुपर
उपर. रहे मतनां हरीतां आपा डरी:
ने पली अेह पात लख्यो छे.

अ३गाम.मांअे३असीतरी हती.तेपोता.
नाहोक३रांउपर.अोटी.हरसीटोथीअेती.
हतो.नेतेहोक३रोअे३ रुपालोहतोतेथी.तेनी
मां.तेनांउपर राळहती.तारेतेगोमनमा
पोचारे३.३ अेनेमधुपान.पाईसीतो.
पोतानां.आपमारहेसीनेहो.तारेमारे.
कामथसेनेमारामननीइछांपुरीथेअे
पुरणीनेतेनेमधुपान.पाईनेतेथीअे
दुकामक३रनेपोतानुंजवराज३३.तेनाथी
तेनेहाडांरहांनेतेनेहोक३रीअवतरी.तारे
तेनेअसीतरी.राडीरागा हती.तेथी.तेने.
सीनगीरनालोक३जोलाअवआपीतारे.
तेगोर३३३.तेहोक३रोनेलेइनेहेरोयाम
[illegible] तारेते हे३रागोनअे

૩

ાહેબનાં દરસન કરવા શાહ રૂબાતરાજુ
રતા હતાં તે આધી એક માણશ કહુ કે તુ દી
કરો · અન આપ · તારે તે દીકરો · તેને આપી
દધો · તે દીકરો · લેઈને અકેમદીને ગયા ·
તે તહાં રેવા લાગો · તારે · તે ઘણાં વરસ રહો · તારે ·
તે દીકરો · જેણે · પોતાંની માંની · શાધે · બદફેલી
કરો હતો · તે છોકરાયે પણ મનમાં વીચાર · કરોકે
હું પણ · અકેમદીને જઈને · નબીશાહેબના દી
દાર કરૂં તો બહુ શારૂં છે · એમ જાણીને · તે પણ ·
અકેમદીને · ગયા · અને તેને ઠેકાણે · રહોને ·
બોલી છાડી · જે · એની માંની શાધે · બોલ્યુ
કુકરમ કરૂં હતું ને દીકરો · થઈ હતો · ને તે દીકરોને
અકેમદીનાં બાતરૂને આપો હતો તેને દીક
રીને ઘરે તે પણ ગયા તારે બોલાને દીકરે

સાહેબના રે વાચા રૂપે - ઇ છે હોકરો મોટો થઈ ના
હવે - એને પરણાવા તોહુક - એવું બાળગીન તે
આવેલાં હોકરાંનો શા ઘે - પરણાવા હોધા - તાં
તે લેઈને - પાછો તાને ઘરે - આવો - તારે એ
માવે પોતાનો છોડીને - મોકલ્યો - તેમન મા
સારૂ કે એનો કામ - બહુ ખોટુ થઉ - એક તા
ન એનો - ને બોલ્યો હોકરો - પણ થઈ એવો
સાર માં - એ બાઈનુ કાલજુ ફાટી ગઉ ને તેમ
રોગાઈ ને તે હોકરે વારૂ કે માહરો માં એક ગોક શા
ધારમ રોગાઈ તેણે પરણાવ્યુ કે એ ખોટા કામ મ કી
રાવ્યા - મરોગઈ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ તારે - તેના હોકરે
એ લઈને - પોતાનો માનો રાત લઈને કબરસ્ત
હોને જુ પેઠકે - કબરમાં ઘણુ જ બળવા લગ્યુ (૩૬)
ને એક હોલો આવ્યો ટ પર પોતાની માલેહ
ને કરાન પડે છે તારે તેને પુછુ કે માં તમને એ
પ્રદ શીતમન કે મન લાગે - તારે માં એ કહે

... તો ઊમરમાં મ. ૬૨૬ - ... પઈનાં
તે એકવાર. શાબજી છતે પાએરઈ... તે
વીનેપાએ છુ તારે દીક રી. કુકુ. તેનાકા
મ એવાંઆટાકરાછે કે. કાઈ કે હેવજીનથી
તારે માંએ કહુ કે. મારી ઊમરમાં એ કાઈ શાહ
મકુ રેનથી. પછી એ. એવાર. ૬૨૬ અકબર
શાબજી હતુ તેનો બરકતથી. શાહે બેમાર
ઉનાઆ હુકરાને આવીપદ વીઆપી. છે.
તેવલીને કાઈ એ ૬૨૬. અકબરનેપડશે
નાવાસ શી. ના. બખાને પોતાની પાશી રાખ
શી. તો તેને અની ઘણાં શાવાબ પાશી
એ પાશીએ ત. શાહપુરણાઇછ બખાતના
શીવદ. શેમદ. અલી અલીમીયા. બખ
ષત કાકા લાઘાતેશીબરનાં એતર. ૨૩૬
પ નેપાર શીકુકરને દાડ શીગઆણીશી. ૬૦૦
લઈને આવ્યાતારે બખાઆપુછે

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

९ पीर समसिना सेल कुह

२८ आंत मे आंसारा नीन आ॰

२४ सत गुरुना सिरजुं कु लख्याछे॰

५५ वारु सती आो सर्व तेडे तेपडा॰

१८ कुन पंथ कुं मांले कुं सर धोधा॰

९ रुपर ता पे सेर सती परत॰

५८ कुला रे पाली सती आसुर मे

१० फुला रे न कुल पीन पसा वेडा

वगारे

१२ आहीन मारे मन मी हेडा॰

ओंनतपछी॰

१५ केला प्रालेम आपानल

ઓરી મોલા હરે: મોન: નૌર· રહીમ·

અશી· શીલાંનો· વશી· શીલામો· અલેકા·

યાં· નબી અલાં· હે·

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો અલેકા· યા· રસુલલાંહે·

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· હબી· બલાહે·

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· અલી· લલાહે

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· શફી અલાહે

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· ખેરે અલકો

અશી· શીલાનો· વશી શીલામો· અલેકા· યા મફુનો અલાહે· લાહે·

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· કુરેશી· અલાહે

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો અલેકા· યા· મદનીઅલાહે·

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા મનોબ· નારૂલાહે

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો અલેકા· યા· મન· અઅલમે

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· અલ્લે ઇલાહો કૃતુલાહે

અશી શીલાનો વશી શીલામો· અલેકા· યા હરતુલાહે·

અશી· શીલાનો· વશી· શીલામો· અલેકા· યા· શફી યતુલાહે·

અશી શીલાનો વશી· શીલામો· અલેકા યા· ફુઝતુલાહે

[illegible]

ती: हरी ने स्क भ णी श्री रु र प

म रे: नारी प्रापर ने न र खी

श्री: ।।५।। हरी ने द्र का पुल

गी फर फरे: हरी ने सो प

त म पै सल द्वार रे: नारी

पापर ने न र खी श्री: ।।५।।

हरी ने ने त श्री ल पा दु रे भा

पडी: र प दृ दू र से हरी ने

गाल रे: नारी प्रा पर ने न

र खी श्री: ।।६।। हरी ने दु स

री श्री त ल दु प द्रा ल से:

नद्रुपतीनलेफलोंःनांग
पोनगतूनीलीइरेंःनारा
एपरनेनरखीक्रेः॥२॥ह
रीनेदंलदंलघोडेभीसएग़ांः
तेनेसेतूपरजासइगारेः
नारांइपरनेनरखीक्रेः
॥३॥हरीनेजूडानेलेली
फरेफूरेःमेघाडेमरना
घरप्रतापांक्रेरेःनारांइ
परनेनरखीक्रेः॥४॥ह
रीनेसरपंहीपांदेसोत

नेरेनीआपणासतगीर
नेपासःनेंईपखीईदारपां
भीआःहांधीआलीलवेव
पासःसांजपारपीस
रगीरखहेःआनरनेना
रांपीआमखहांःगानाआ
शजाधरेःआगीरनांखु
हांनीनांखीलआःतास
तदरंभनहीआपेरेसाधः
तलआपसनपारणेः
आगजहांसीहजाप्रः

सांभ पीर सम सरस तणी
रखुवि: आनर वे नारांये
अमखुवि: ।।२।। पीर जाणे
ए: आदे नी आंनी गाफल
तनू आंडासी: अने गाफ
ल तेमां सांशआप: फरी
ने फरी पसतासे: पड
सी लख धीरा सीने धार:
सांभ पीर सम सरी रे गीनी
खुवि: आनर वे नारांये
अमखुवि: ।।३।। पीरा

नाथजि: अंतजापानीसं
घाती तारी क्रींअं नही: न
ही तारे माथे तपाप: नही
तारे छोरू पाछा रू: नहीता
रेकुं भपरपार: सांभ
ळोरज्ञिसर गोरघु है:
आनरतैनारांएांअं भकु
हां: ॥ ४ ॥ पीरशनाथजि:
अंदरचे मांम साहांअं मं
जोली आः अंतरज्ञ सर
रामतेआसः साहेल

तं भारा आगे कहे सें: ते
आदर सें पर्ध फु छे भांपासः
सांईना पीर ने सर दुं गीर
फुहे: आप पेन रहे नारी
एने भी म फुहा: ।।५।। ।।

भीसतनु रखे रं भाधा भाः
हे साभी भाराः सरबे जप
न पफी सांयराः तारे हे
तो लीलं धुं धुकाराः ।।२।।
हे सांभी भाराः हेपर जपे

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥3॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥४॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

हिपा॥ हीसांमी मारा: मु
पदपुरीनें पार्धगाम्मा: मुनें
मि जीगम्मानरधारमापु ॥
हीसांमी मारा: धरथीपुरू
घपीनती: मीरांसांनपो
म्रारदास: ॥७॥ हीसांमी
मारा: नसीरहीनपुरेघे
धीनती: राखीगोरमरंमा
मनेंपास: ॥८॥ हीसांमी
मारा: नसारहीनपेधेहू
मम्रू: मारिनर्धपेपघूरां

२०५

लीर्थः॥१७॥हंसा सांमीमारा:
गोरख रंभाकुमीन तीमं
न धरीऽ नाथ क्रीडा कुरं दा मा
रदास:॥१८॥हंसा सांमीमा
रा: नासीरन सीरन मला
मछः मारा नाथ क्रीडा संभी
न हीकोंक्ली:॥१९॥हंसा सां
मी मारा: मं डरी कुर ती
मांमपी: भरिन थ काप
घरांनीर:॥२०॥हंसा सां
मी मारा: गोरख रंभाना

पंदुगी मंन दर्शः तं मने
कुहि हिपतं ती सकुरीऽः॥
॥१३॥ हीसांमी मारः का
स मांन लागु लरनपाः
कं दरे हि लांत रे पाकिः१४॥
हीसांमी मारः सेलितस
तार्साऽ कु रीः तं मनेका
हासकंगा न का कि ः॥१५॥
हीसांमी मारः तारी पाप
जपी ताला पडाः ते कुडे
मारंगा कु मना कि ः॥१६॥

हौसांमी मारा: पणासी ते
पेमान्नेसकु हे: ताश्रीगत
नेहर्मिकुं मर हू: ॥१७॥ हो
सांमी मारा: फरनं नपुरे
धपी नती: तं मे सांनपो
माचने ब्लाप: ॥१८॥ होसां
मी मारा: नब्ली मह मह्म
र्मिफोललीन्ना: नार्थन्नासां
नफिन हीन्नार दास: १९॥
होसांमी मारा: मेघाडमे
वसरत पाप्ली न्ना: नरन्नो

न पूपी ता न आप :॥ २०॥
हो स्वांमी मारा : तारी रात
मांधीपन नै कुरे : तीन दी
परीआं न पाप :॥ २१॥
हो सांमी मारा : तारी गात
मांगगपन नै कुरे : तीएमि
लोगीर नर नारा हि :॥ २२॥
हो स्वांमी मारा : नगथीकि
ई नथी पांच मि : आगीआ।
रमी न हीआपता रे :॥ २३॥
हो सांमी मारा : पेहपरते

2010 Before -Satpanth Manuscript 10 (160)

पांच मी: तेनां नांम नव
खांगं नां न: ॥२४॥ हीसा
मी मारा: हदे मांम्री पी
म्री न्मू नं द कुरे: मां छी दी
ही लडसां सार: ॥२५॥
हीसा मी मारा: मी रां म
हं मदु सा हाम्रे मपी लो
मा: नाछेम्रा क्रां न म नो
खादि दारू: ॥२६॥ हीसा
मी मारा: न सी र दीन
कुरे धपी नती: तं मसां न

१०८

जी माई नी आप ॥ २० ॥

श्री सतगुर फरमावा आ:

हीरे सांभी: आपडा पो

पनां प्रीज नी: पंनी आ

हंम सारी: ॥ १ ॥ हीरे सं

भी: दर्सन आपता रे नां ध

ओ हो हि लो: सुख न धट्र

घेमारी: ॥ २ ॥ हीरे सांभी:

पेसा पड हो पांखी पुरी:

दीसे घोर अंधारे: ॥ ३ ॥

आंश्रीपुरीःसामराद्घीमा
हुः॥ क्रिरेसांमीःमींहो
तहींनो मंहंमंहमांपजाः
हीपीद्रिमतमांश्रीःा॥
हारेसांमीःपाधनाश्री
मंहंमंहमांपजाःनार्धि
श्रीपुरश्रारद्वाम्हः॥१०॥
हारेसांमीःनीकिरनव
तुश्रांश्रीपुरीःश्रपराद्धे
मास्रः॥११॥हारेसांमीः
तंमुधीमोराजीनाश्रो

२०६

हारिसांमी: हुं थाइधनि ञ्रां
ञ्रे घरपी: ञ्रांपी हि हि लि सं
सारी:॥४॥ हारिसांमी:
पाधीनी ञ्रात पट मा: ञ्र
पराइ भाइ:॥५॥ हारि
सांमी: ञ्रांपी ति नला ञ्र
सकरू: पडिपमर मारी:
॥६॥ हारिसांमी: हीन हे
नी ञ्रांमां हि नू र कुरु: घ
रीतु लवी पाधे:॥७॥ हारि
रैसांमी: नपनू तेनूद

२२० तंमानर्थीसतांर र्णसरणरेनारः
जुगादः
२२१ तांहांसांपीराजान्नापर्नितपाल
२२५ तूर्णपीसंसार पांजीलतां:
२२६ नारान्नापापर्तिरासांहान्नाः
२२७ न्नानतांर्न्नां परतमांडी:
न्नां
२२२ न्नातंनहरडीपीरांसांहापंनी:
रन्नां
२२३ नाचरिन्नांणेनिसपंनातर्न्नांडान
२२४ न्नरननपेलेनेहनांमातापडा
२२५ नारेन्नाहिंनसरन्नारडातूर्णहिंन
२२४० नारेलार्थपू पंनहांजन्नापोर्तिसा

2010 Before -Satpanth Manuscript 10 (160)

२५२ हि जा जरी पूरी सांहि रा ना
२५३ हिनो संसार सागर जूवो
२५४ हिना धेत धेत धंधप मन
२५५ दूरि थां दि थां त रोप र गंगे
२५६ न पूकां पूी भगत मह आपीआ
२५७ प्यार भीसद्धी न रे आपसे
२५८ प्रगांन सेनि री नंगपागे

प फ ख ग घ न च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व स ष ह ळ क्ष ज्ञ

६६

॥श्रीसतगोरब्रह्मायाचा:
पीरसांमसधुहंतमेरुणे
रेलाधः आंमे आगांम कुह
ऐकुपांणी: कुलजगआवे
कुमकुरीजां णोः आधतेनी
कुइसोऐ धांणी॥२॥ नें
ऐनंमेराहा इब्रलधंः अं
नेते मुंमनन हापाणीः पेह
कुहेंत साधनमांनेः आध

मतसर्वी थालि ॥१२॥ पी
संभ सकुहि तंमे सीडीरेन
च॥ श्रीं ने डीं एपडीनं मेल्ख श्री
श्रीप मतें जाव हीज डुपडी
श्री॥ एलें मे श्रीं मरहृ श्री॥१३॥
श्रीपे मतें जावाल्ख शंप्री
ति॥ श्रीं नेते तिपर मुमंनल्ल
पधरसे॥ लेएलें मडीराधा
मताप॥ तेस्तु धापीडु रसे
गयानि एलें म श्रील श्रीधी
डुरी भानें॥ श्रीं न श्रीपेडा श्रीं

आसी : नप्रीपीरसां पसंसी
एीरेनाछ : तेज पनसरे
धीजफूनासे : ।। पा।। आद
दुनादआलजलीनपीपुं :
आं नेएलेमां जगीज गेआ
आं : भानरपीरसाभापर
जपरमांपां : तेज पनस
तसीधाआं : ।। पु।। नेफू रने
धांतरीसधएांरी : आं नेगत
मांझीघीनजां गे : ले दुपरा
दुपरीपादपदेगा : तेगत

नामि स्वामी जी॰ ॥७॥ जे पु
ती श्री पत कु टल ग। गि हि पा
श्री न पुं धि गं नां न संग दीन
ही श्री ने॰ श्री न कु रत दीधे
मी टा धि कि मा॰ सा मा ने पु
धन माने॰ ॥८॥ जे सतील
प गुर गं नां ने पालि॰ श्री ने
त सपु पु हि गा कु ठा॰ पडा
जे पा खं डी नं धां गा का॰ श्री
न हि स पु पु हि गा मी टा॰ ९॥
तां हां सा मि कु श्री धि या त नां

५

[illegible]

तामि प्यानाग्रे: ॥७॥ नेपु
प्तीकुाप्त कु टलनगा निभांपा
श्रांनफुाषिगांनांनसाडीन
हीफुांनेः श्रानलुरतडीाधे
भोगटापेंहि प्राःसायानेकुा
षेनप्रानेः॥८॥नेसतील
पञुरगांनांनेप्यालेःश्रांने
तस्सपू पुहेगालुठाःपडा
नेपायांडीनंदांगाकाःश्री
नतिसपूपुहेगाभोगटाः८॥
तांहांसायेपु कुाषियातनां

पूछि: श्रीं नीलकंठे पास

बोलावि: नसतीज पनां

बोलेल छीं: तेज छे जडी

आत मत्तावे: ॥६०॥ स

तगुरतीमु मनछ मली

आ: श्रीं नु मुरखमरं मन

पावि: लोनसपारध ला

कलुडा: तेमधांननमगो

मावि ॥६१॥ सतपंथतो

मुमंनछपाश्रां: श्रीं नपए

नमुर्छ मंनछडाडागा: ते

गांनधांन मुखीनि मुरख
नर्थ जीवनसपार पलाग
॥२२॥ नि नंधांनु १ कुरीनि
दीपसगं पापे ॥ अं नरे
पीनि अंतासीपि ॥ नीएतं
म आल भुख्य र न पा
पे ॥ सीफ्रिद्धि मुमंन हीपे ॥
॥२३॥ नि पीत्र नराहा दे
म्म लाई ॥ अंनि तेसलागा
हापे ॥ एधाल माल सप
पीत्र कुरा ॥ तेमनी मासा

७

फरमावे:॥ ४ ॥ वली हा

ल शाल पीर काम्भा आं:

आंने सोतां केथ नतरी आ:

ए केतू सोप री आ सावे:

तेन सरे हान कु प डी आ:

॥ न प ॥ को हि पीर सं अ स

सो एी रे ला धे: आं ने आगे

अ पु धी सी एा आं: नेगत

मां शू मं न कु रे पीर खी नं

हां: ता रे कु हा आ ना ला ल

आ आं: ॥ ५ ॥ नब प्र दू फो

मुमंनआगलाखपुरषा
सांः आंनेगीरथसांसिपंद
गापुीती ः तप कायर सायर
जसत नीपूगी ः ते लखाथ
सांसपुडीती ः ॥२७॥ सा
हआईडुनादजगीडीतीप
डाथ ः आंनेआगीर आले
आपां ः नेआावथपी सन
कपुथीरां ः ते ऐगाफले
जनं सहशापां ः ॥२८॥
नेपामंडीपामंडेराथां ः

८

अंनिएलंभजीदनपाआं:
पणनिगतभांजूतखांनां
पांपां: तांहांफुहिआनां
कालआाआं: ॥नूर॥फ
पीरसंभसफुलनगा
अंनि: अंनिएपांपाखंड
पांसि: तंनापपीघीसर
पनहीथर्नि: नसरदीान
फुलासि: ॥र०॥आफुलन
गफुाएसानिहिभा: अंनि
पाखंडसहिराभां: नीएन

मत्राव पीरसतपाई
ईः पणाहुसदुनमांनेसा
याः॥२७॥ नसदुक्रन्र
णपामृनपेलांः अंने
रपाएकुपीरलीआः
पणानेनकुफुरमेदोन
फुलखीआः तेपाख्याःमे
ललीआः॥२८॥ नेनकु
सकुरीतसामनपेलांः
अंनेनेएोपीरपरमांणाः
पणानसकुफुरमेनसत

८

लखीआ: तेंडाए लं गेरत
नांणां:॥२३॥ केहीपीरसंग
सखीडीरेनाथ: आंनेसांथ
लसापेलिपा: अपनेहां थे
भूआपनेलापष्ट: आंएहा
जुसांलयेहेपा:॥२४॥ न
गुनगेनागलापडीआ: आं
नेसीडीरेसामाएआरे:
नगुनगेपरधेपाआपी:
तपएपापाभंडसारो:२५॥
आपुलनगा भांपीरपासेक

हा: आंने मामी पे हपर मांहे
नेनवीछ मांम आलेआ पा
ते रमे हा कुरीजांणी: ॥२६
नेस कुपूरएपापन पिलां
अंने बेएपीर नहीपर मांहे
नेने मीहार घापनहीलं सत
धी: तेएहा कुरीजांणो: ॥२७
जे मज कुयापीसे प्यासे पं
हा: जेणे एलं मेगर पुर मां
एां: पएने जे छ मां नी पीर
पासे हाता: तेएहा कुरी ज

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नणिड्रां द्रिाणि ः आपंनानप
वृ आप नेहा पूः लघ द्रिा नवु
मांलीणि ः ॥३१॥ नणि स्वुणि
वुघ आरघ नसीजि ः आं नेपा
णिजा पडाघूट ः प णन्नि द्रुवं
नानि एलिंमपांयि ः तेन सट
हघ आणिवृट ः ॥३२॥ वुणिवु
हि आरघ णिलनधी ः आं नेपणि
पाधिजड मीरु ः नेणि लंम
नणि स्वुणि [illegible] सरी [illegible]
[illegible] नें तेमांन नही पाणि ः

तेफुहासकुणां सांभलु ८ा ः
॥३३॥ जिनदी सकुणी त पिद्दि
सरीष्मा ः अंनते मोजिन
हीपाले ः जपोपीर सं म सं
सोणी रिजाधि ः तेनाण प
पडसि नंनापी ः ॥३४॥
पीर सं मसफुहि त मि सकुणी
रिमु मंन ः अंनि पिद फुहिते
सामू ः ऐलं मलप्मा ति सा
मांहीसे ः ऐफु त लं आधू
नहीपाधू ः ॥३५॥ पीर सं

[illegible]

पथारि: धानूमदपमोत
लडेगा: तांहांपन्नूलपंतांपु
थारि: ॥३८॥ पंत्राणतंथा
पूसरापदिथ्यां: त्रांतीसो
तांपथंनम्यासी: तेतिदरं
मनीमानासुजनहीपडे:
तेनालपएपीलासी: ॥
॥३९॥ तारिपथंनपथंन
थांहिदगीपुरसी: त्रांनिदि
पदछतथांमांसी: परम
पीतानेमिलीत्रासत्री:

तेणीना संघाते नासे ॰
तांहां अरसाल पंत छुटी स
न नही ॰ अने ते पुं म साल
रत्न पीना से ॰ पाएपी
एपी दुर्गी जाय ॰ दास दास
मन पासे ॰ ॥ ४ ॥ तारे
तीसती ने पर जाहो से ॰ अ
नेद आही एप कुपी कुलें ॰
पिकुं जी तीरा ना पासे ॰
ते ही घाकु ल न ही पाजे ॰
॥ ४२ ॥ तंत्रो कुरीह साहा

2010 Before -Satpanth Manuscript 10 (160)

री मु मं नजाथि : आंने पी रे
जुही सी षा आ : व प ऐ सां
पां पं ड जु ल व ग मि पा पा :
त प जु हा मा हा द न आ आं :
॥ ४३ ॥ तारे प ती नां प तु प
रजा सी : आं ने सु णी रे सा
पा ऐ आ री : परां मि पा नां
ती ही गां तु र से : तां हां था
सी ऐ जा जु री : ॥ ४४ ॥ तारे
परां मि पा गा पी नां पि तु पा
प से : आं ने पी र पि गां प रे

नासिं: कुंनातणीदरपन
खर्चनिं: तेबीजांगतं माट्र
भासें: ॥४५॥ तारेनात
भैली परनाते पर णी: अं
नेअसती भीजरीतांभाव:
एकुनारी तुष्टाभालजकुन
णासें: तारे अपानें णी
कालं: ॥४६॥ तभनप
भरसकुंभापीदेखी: अं
नेसीतोभेरान णासें: ता
रेअंनपांणीअघेरांपा

९४

कुंःप्नापकडीहिरतांहांपऽसैः

॥४७॥ तारिमारपरसप्ना

परपपपलिगाः आंतेगा

हिआदिहांवएासिः हिरांपा

डीमसीतीकुरसिः तांहां

मलांकुलमीावएासिः

॥४८॥ तपईमीादरीआ

लीमीपिगाः आंतिवपवमां

पांएानहीपालेः वे हिपी

हिदारांनांएपांलिसिः तेप

रीपाघांमहीआलेः ४९ ॥

तारे छु ह पा मां न मु मां न नां
पासे ॰ भ्रं नी द्रा खे नं हां छु
ह नां मु के ॰ ते छ शी भ्रा छु हे
मन पा जे मु रम ॰ न वीरी
मणा छु मणा रुके ॰ ॥ ५० ॥
ने नं हां हा ए तां हां भ्र रस
ति पने ॰ भ्रं ने पे ा जेगां न
रुद पी न ही जां ने ॰ प डा लु
हत डी ा घी मे हि मा मे रे ॰
सा भा ने पे ा घे न मां ने ॰
॥ ५१ ॥ तारे सा मा भा से

साथपतीनां: श्रां नेसाथ
शपवीथीतरी श्रा: वपटी
परांपीपारनपा श्रां: तेणु
शाद्दीनवुपडी श्रां: ॥ ५२ ॥
तंभेसुणीतंभासावुलन
नक्षिराः श्रां नेषीवावुठेण
श्रापीः एपांभरपरवुपी
नांपापां: तंभनेवांलगी
वुद्दिसंभजापी: ॥ ५३ ॥
जणेसुणीश्रोरजेदषुजे:
श्रां नेपांनवीपाला नांभे:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk160/page/n91/mode/1up

थिलघंतै ः तंमेंइंस मांताल्वाखो
लेः ।पटे।इंवतेरा।मांइंख
पधारी ः अंनेपांम ल्तद्वपाले
खद्दि पाखें ५ कुलन ग। मेंपापोः
तिकुरीपुं मार्वकुंहारेः ॥६॥
गरन पासकुंकिलसंनापोः
अंनेइस्वोघीकुं एन अालेः
नोतेंम अासाहिएनसवकीः
तोएतेंम पधारीमाखोः ॥
॥७॥ इंस पर नाही अंतरुए
मुं लेनुरमा नेंइने ।
संमपांमे ःनासद्वधमा
मैंने नुरे मां नैइने ॥

[illegible]

पीरसंमसनीपेजलखीये:
ारागीफरा॰एलं मझुंदा
ना ऐनीजा आ॰ अंन [illegible]
परभुरानेपआर॰पीर
संमसकुहीतेमेसांलखी॰
खांऐनूजा तेपारीपार॰
ानागांनांनज पुारखु पीपा
पेनही॰आंने मुरख नेभू
जेक्षप्रम॰ने नेपाप पेलां
फरीपखां॰तेनेनपडे ध

रंगनीसुन्नः॥२॥ तीनेप्रा
नसहीपएपिरीश्रीः श्रं
नीस्हरतनपंनानहीःश्रा
पांगांनचएीसुएीपानन
हीःपछिनसतकुंमपावे
तीहिः॥३॥ तेनश्रांपसही
पंथश्रोदपाःश्रंनेगत
मांहांमचिछिनंतःश्रान
गमांमांश्रांमीछडीःहिस
पीपरीश्रांमंतः॥४॥
तेगुरहीछासारासांनदां:

श्रीं नेपीर सं मसपु दीप
पार : नेगं नां बल पीसु
णीपापे नहीं : तेदी लपुने
दरपार : । पांगं नां नल
पीसहीसांलपे : श्री नेपु
परीन भजे पुड : नेनी
पापुजपुर दी लपु : श्री :
सेपुंध २ मुरपपु मुड : । पु
मंनष्मालेन मतीपांमी
श्री : श्रीं नेसां मपा नपीश्री :
सांपे : परांपीश्रीआपतांश्री

९८

गाहरखमांः पएानातांधे
एजीबाहः ॥७॥ तेपारध
खडीपंथदूरहेः अंनेपट
वांनपाधेएपारःजेएसा
अनराखमंनमांःतेन
मधूांनपूसंसारः ॥८॥
मंनखानेनमहेदरीः
अंतेनूजांतेपारोपारः
नेगांनांननएीसएपाखि
नहीःतेनांधखपडाअप
तारः ॥९॥ गांनांनलए

स्रुणी सद्ध पार्थ ए ः अंनेन्रु
वडा न पड सीखे ए ः पीर
संम सपुहत मे सां जुगा ः
तेर दिप पारी नें ते ए ः कु
गंनां न प पारी जा थ कुनी
परी ः अं नेर दे सां प पारीने
नीए ः सती जा प पार दित
री गी आ ः प पे पु पती नत
री आवे ए ः ॥ ७ ॥ सती
जा प पार दित री गा आ ः अं
नेने णो दे जरा पां पाकु ः

नेपु पटी प शं एपी हीज फुग

न्या॰ तेनी पेद मांन हीसाख॰

॥२२॥ सा भू य ता घूरसी॰

हीम जीवीशं ने भ्रम पीर ॰ न्या

ग पान गम पी पांय मी॰

तें मीसी पुरे मु मांन पीर॰

॥२३॥ मु मांन मु मां न स

मपुी घपु हि ॰ न्या तेखपदो

घसांन लीगं तां न॰ गुरु हे

रपीह र पीसं मनापी न्या॰

तें मनी तोए नन्यापीसांन॰

॥ ७४ ॥ सत श्री रा टी म्हा र्थ हे
श्रं नै तें पू छ पा र्थ पा रु: नो
रहि पू पू ण ग रा सी ष: ता
श्रा हा र ते पी श्री ड पा र: प
॥ ७५ ॥ नी र्थ नैं श्री हा र ली
ला ए: श्रं नें स ती श्रां सा मू
वी ल: गं नां न पू भी ल र्थ
हा धि आं: ता रा धं न न्यां ता
पां मी ल: ॥ ७६ ॥ ७२६
ल मां ही प बु ला र्थ श्रा: श्रं
नै मां ह र णां पी श्रा सो नू रे:

नेपांमेपसर्वाछे भनीप
रीःतीकर हंमसाह्रिप्पहणा
रः॥२७॥सतगुरेसाहा
हेमाडीक्षाःझंने तीछेन
स्त्रीपदरं भःऐसाजगमां
सांचधिःतीप्रर णापरीप्र
रंभःा॥२८॥तेसाहदमां
गारपधीःझंनेतेसातु
लमांपरांणाःपसाजगा
मांसांचधिःतेघरघरपां
पड्नांणाः॥२९॥तेसा

तल मांहि वलहि ः अंने फुास
र मांअं गनी नींए ः एस्वा
तुल मांसांचखि ः ते मधि
पनगरहि एं ॥२०॥ मही
मधिगर धपाचए ः अंने पी
रसं मसही ननी सांम ः
ए मदहीं नीं म धीए आप
णी ः तो साहा दृ खोा ए णी
आंम ः ॥२१॥ कुा आंखि
ती मांकुरी आहि लखडी
ए ः अने दृसो दीखीन खो

ए॰ तेमांनपुरपांणीसीधी
ए॰ तोसपकुधनीपनहो
ए॰ गारदगजोरनेपूधीपं
पकुंमापे ए॰ आंनेखरीद
सोदहीनेसार॰ नेणीनग
मांभीरपरमांणीआ॰ ते
इंणरसाहावापेआर॰
गरउगनेदूरंमलधीपाप
नतीं॰ आंनेहीनपुमांते
नोपास॰ पणनेसभी
आराभुनीपर॰ तेनि है

गेसाहिबपुरीपास ः ॥२४॥
नेसथीआराधुनीवर ः
आवे तेनापमांएकुतीवल ः ते
डोसतगुरसाहानआ
पणां ः तेनापगुंसाहि
ब ः ॥२५॥ दुहरं ४ जीआ
तोडांकआ ः आंनेपीरस
नपागारंग ः नेपांएपिमां
पधरवसे ः तेनांनीरनां
चीनेआंग ः ॥२६॥ पण
नेहांतेपधरसरीआ ः

लेपुरीनपछांणीपीर॰गो
नांनमांहिसाचीदीऐ॰तो
नेहिमीठीमांनीर॰॥२७॥
मीठीमांनीरनेहिहीजाऐ॰
ऋांनेपड़तांनीकूथाऐ॰प
णनेसथीऋारा४नीपर॰
तेगूरगंनांनसांप्रेगपनी
नाऐ॰॥२८॥गंनांनप
मारि४नीपर॰ऋांनेन
कुरोहंनीऋांनीकुंपा॰
नादरचिपांणीपरमतो॰

पछेनेत नी रनपांडा॰
॥२८॥ पडातपरसीरवा
मछे॰ आंनेपडापापरसीन
ते॰ नेसतीसीपांमएम
तपरीं॰ तेकाएरवं मना
स्वर्ग॰ ॥२९॥ गंनांनप
पारीजाणमुनीपरीं॰ आं
नेफ्रजन गपडीरांएधांएट
पीरसं मसएमपोतनीआ
तेआगं मनांनरपांएह॰ ॥३
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

श्रीसतगुरपरंमापाया:

सतगोरकुहिरे: पीहिपीहि
सपनेगाफुरे: पणपीहि
नपापिकीएरे: तेपुरखेन
पतांन भलेरे: अंनसरसा
हिता एरे: ॥ ७॥ सतगोर
कुहिरे: सरसाटांतीलेकु
रे: अंनेरेहिपीनेगापिआ
सरे: लापलेगापिनेकुर
सुरे: तोसामासुरीलेंन
पासरे: ॥ २॥ सतगुरकुहिरे:

पीरपीरना पनंतऊरे ः
अने पीर नपाप ऊ जारे ः
पएलनी नपतां लमझार
ताप गाहंसनहाएरे ः ॥३॥
सतगोर ऊ हैरे ः पगहंस
नाहापंतरा ः अने ईस
तएऊनरंगरे ः पगामरे
मंनमांनीआंरे ः तेहंसाथ
रेएऊ रतंनरे ः ॥४॥ सत
गोरऊहरे ः ऊाघरतंनना
हापंतरा ः अने ऊसता

पाखंडीनातरे॰ पुछ्युं मा

न्रीपखलरे॰ तीरतें नअन

पापीरातरे॰ ॥५॥ सतगु

रफ्रीहीरे॰ सुगरांनूगरानो

हीपंतरी॰ अं नेसमसु

रतेफुसमां नरे॰ नूगरा

पाऐहीं मफ्रुरे॰ सुगराये

फ्रुरीनांमरे॰ ॥६॥ सत

गोरफ्रीहीरे॰ नांमलीदां

भोंहीअं तुध पोारे॰ अने

पसेमसुपरीतनलाऐरे॰

ईंद्र जट्टि परवीप णां रे: न
मफू टांमा द पा म नाए रे:
ग्न ासतगीर कुहि रे: परि
मनगत र दिपके रे: अंनि
अंतर विहि लगाए रे: पए
सासट्टि सासे नं पीए रे: ने
मपुां नेसु रत ननाए रे:
ग्न ासतगु र कुहि रे: नसे
मेर्छ मां न पूरगाडा रे: अने
गाफल वतहो पे दूर रे: तांहां
अंधारां कुं आाकु रे रे: नांहो

नरीनं न फ्रेरा नूर रे॰ ॥ ७ ॥

सतगुर फ्रेते रे॰ नूरि भंदसें

भारीआं रे॰ आं नि नूरे रयो

आसमांन रे॰ नि नूर मांहि

भी नूर परगटा रे॰ ते नू

र गुर जरे भानां भ रे॰ नू॰ ॥

सतगुर फेरि रे॰ न प लोक

लालां आं लीआं रे॰ आं न न

लीआरि रेहि मांन रे॰ तूणा

गुजा तूण पारसी रे॰ तूणा

मांहि जलीआं फ्रेरां न रे॰

॥७८॥ सतगुर कहे रे: भ्र
मेआ पाउ सर्वे कुथी रे:
आंनंद घणे अस मांन लीए
रे: रंग जोग भ्रि पद पा
मीआ रे: प डा पीडा आ स
कु माए रे:॥ छुटा॥ सतगु
र कहे रे: जोग पड तिलि
क नां रे: जेणी घां तपती
र थ पुर तधां न रे: ते सरघ
जोग पी छितरां: जेणे नां
पुन गुर नारायण रे:॥७३॥

सतगुरपीरहीरेः पारमंते
नगपाथआरेः आंनेलाए
छतानूलाऐरेः नेनेनूर
सतगुरनजीटीआरेः ते
ह्रु सकुरीआं मारपाएरेः
॥ ७४ ॥ सतगुरपीरहीरेः
शीनानू पा मीसा थहीरेः
आंनेद्दीनेआंगनपीकुस
रेः नीमानरसांपीगापी
ऐरेः तेंक्रे मकुरी हीपेर
सरेः ॥ ७५ ॥ सतगुरपीरहीरेः

गुरु के सरीगां उडारे: अंने
सेंपखु नीसरजारे: पड़ी
बांधांनांपीने बीसतारे:
तेणे मणे रीधीत रे पारखे:
॥८०॥ सतगुर केहे रे: गु
रु अंधातेना मेलानरदे
रे: अंने बे हिनांनां णोनो
तने: ने आप भारा हाने
मंनकही रे: तेने पण अ
मपां प्रेमीयमरे: ॥८१॥
सतगुर केहे रे: गुरु भार

नांसिप्प जगा मरे रे: अंने
भाया न मरे पीाए रे: गुर
ज्ञांन पंथ्यांने मरे रे: तेने फे
री मर फांन होाए रे: ॥२८॥
सतगुर फ्रे कहे रे: संसार सा
गर सी हीाणा पहे रे: अंने
सर हुं पर नारी आचार रे:
पणांने सतपी नाां पिमि स
तार रे: तें तर फुर हीतरे पा
र रे: ॥२९॥ सतगुर फ्रे कहे
रे: नापपी ने हरी फांनां

मवीरे ःत्रांनेसायाजरी
एजाररे ःजीपपंनयाले
परीमजारे ःवीसतगुरु
हितारे पाररे ः॥२०॥सत
गुरुभ्रिह रे ःजूलाथरमन
पनजूलीए रे ःत्रांनेसतगु
रुथीजांमतजांणरे ःजाप
पंडभ्रजे दणीरे ःजेणीस
रजायारे थांणरे ः॥२१॥
सतगुरुभ्रिह रे ःयारेथां
णमेजापत्र्रापीत्र्रारे ःत्र्रांने

चंमीति पवित्र अपार रे: पुरु
पुरुषे पंन पीतातणां रे:
के पांपी पंनव्यादि अपता
र रे: ॥२२॥ सतगुर कहे रे:
पंनव्या देही पांपीतां जी
न अां रे: ननां णी मुगते
ज्ञान द रे: मांएक मो दूतो
ज्ञांन ज्यां रे: ने ने अंतर नां
पडी आघे द रे: ॥२३॥ स
तगुर कहे रे: पंनव्या देतो
दूलंज धरे रे: ते न हीं आपे

पारीपारेरे ॰ नींपाव्रपघां
डीपरं मपूनोरैरे ॰ तेरूा
पहीपेनसखा रेरे ॰ गारेप
सतगुरकेहीरे ॰ कुाम सखियां
डीतेसरचंमेरे ॰ म्रनेमत
कीधियांधोम्राास रे ॰ ऐम
हरीरहे मांराखी ऐरे ॰ नेम
रपी हिंगे परकुास रे ॰ रपा
सतगुरकेहीरे ॰ रपीहिगा
नेम्रन पापालम्रां रे ॰ म्र
नेरे हरीपुहीपे हुर रे ॰ नपे

ष्ठं मांहि दिप प्रकासीआ

रे: ली भ पुर न्यातेष्टि गा सुर

रे: ।। २५ ।। सतगुर पीर हीरे:

सुरज स्टि गा सहि दिन पीर हीरे:

आं नेरे हुही नां पि पिरो ऐरे:

ऐम सतगुर पीर ज्ञा मां

मुगत धीरे: प पा नीआ परां

पीर मुगत नां हीं ऐरे: ।। २६ ।।

सतगुर पीर हीरे: आं भ जीआ

पांसर घणि पीपीरे: आं

नेपापा मुगत पांलि हरे:

नेनेनूरसतगुरनीरीआ
रे: तेअंभरखुआतेतपे
रे: ॥२८॥ सतगुरफुदिरे:
परतफुलज्ञोपारखुरे:
आंनसामामंनपतीआं
एरे: पणलीहांपारस
नीमनेरे: तेतलमांछु
भंनपाएरे: ॥२९॥ सत
गुरफुदिरे: एआपानंम
तीनोपरांहरीरे: आंने
जर्थमंदरमांपाएरे: प

झालें भरी मनछौ॰ धर्म्रपन
मं पीरे॰ तीर्था पसे मांनी
मालिये॰ ॥३०॥ सतगुर कृहि
रे॰ गंगाला अस्था पामीर घ
लैं पीरे॰ भ्रं नेलागां पीस
तप नैं भरणा रे॰ पड़ा भ्रनें
कुनदी ह्नि नवं लिपिरे॰ तांहां
कु पे गंगान परमारे॰ ३१॥
सतगुर कृहिरे॰ गंगा तीर
थपल्लि फलीरे॰ भ्रं ननेती
रथ माहि तीररे॰ तेपरना

अधुीअ्रपगांभ्याविरे : तोधु।
पेनदीधुानीरे रे ::॥३२॥ स
तगुरब्रेहेमेरे : मूतजागती
सपनेगाधुरे रे : आंनेप
डेते भोग्नेफेरे रे : पधुलेगु
लनीपअ्रनतपसेरे : वे
नेकिाणाप्रतापेसोरे रे : ३३॥
सतगुरब्रेहेमेरे : मगालन
धनीलापडेरे : आंनेधुरी
धुधछेशाएरे : नीपाहापं
नभेभांपासभजीरे : तोते

[illegible]

धर्नि धार रे: ।।३५।। सत
गुर कैहे रे: साधा तैसर
षडा पीऐ रे: आंनि पर्चि ऐ
आंतर नी पात रे: पण जे
हर्नि क्रोध षुधे नहि रे: नै
नैन पडी साहा भी घाट रे:
।।३६।। सतगुर कैहे रे: जे
ही नैन गा पती आपे रे: अं
नै सा आपू भारे जात रे:
पण जे है जे हा आपी म
पे रे: तांहां जि जे पांम

नेसात रे: ॥३८॥ सत गु
र षडि हि रे: सला सीआंतु
सहि खीलि रे: आं नेपडि घ
नां खीलि सत धनें मरे:
नेआ पप खां पीं परनुं
हां पडि रे: लाघ तिसर पे
संपूरे भरे: ॥३९॥ सत
गुरु पडि हि रे: पडुरें भसरवे
पर.
हितरे रे: पणन हिठ रे नेहा
नेआ पारे: परगापं नलां
हितरे रे: न हितरे आपफलां

नीभावीनरे ॥४०॥ सतगु
रुहीरे पांयवतांनीपा
पणीरे अंने केसिरवी
बीआरे पणलीनत
बीगत पामो जीरे तीए
जप पापन नां षाए रे
॥४१॥ सतगुरु हीरे त
पतीरषीप रत जगांनहु
रे अंने हेपणवीलीम
धांनरे तीएहु रमना
वितरेरे लीपुरे गांगा स

नांनरे:॥४२॥सतगुर
कहेरे:पांचहुतांपरले
गतीरे:अंतेलखीलोहूं
खीलाएरे:तेफाटेपडे
फीछेनहीरे:तेलोगपेंधे
पाएरे:॥४३॥सतगुर
कहेरे:आदीगतीनापन्रा
पीआरे:अंतेपडीआया
रेखांणरे:तेआधूरपीर्थ
दूगाप्लेरे:तेस्कलांणीहूं
गतालांणरे:॥४४॥

सतगुर कहेरे ः नंन सु
दीजा पते रहिा रे ः आंन नी
तगयोर्मा सार रे ः पापी प
रीय्परं मे पर्मी नही रे ः ते
नीजांणीसार अनसार रे ः
॥४५॥ सतगुर कहे रे ः
सीसरूपं भांसांजीनापी
रे ः आं ने आपेते मंनभा
रीवी रे ः सतपात नही तेने
सरलगी रे ः ने मतीनापी
रठा मीले रे ः ॥४६॥ सत

३५ मन

[illegible]

॥४॥ सतगुरपुकारे ः
आंनांविधरे आपडरे ः
ज्ञांनीजगांणीमंत्र रे ः
आपीएपीए पंथ पीतातणा
रे ः पणनांकरे आपनी
मतरे ः ॥५॥ सतगु
रपुकारे ः सतगुरआपांनी
पत्रीए रे ः ज्ञांने ज्ञांतर
विकलगाए रे ः सास
उसासेलंपीए रे ः नेम
गुंनेसुरतननाए रे ः

॥प०॥सतगुरकहेरे॰
आपसमारीसाधसु
रे॰ आंनीसतकापूरीसु
गारेरे॰नवीपुंतिका
नपानीहीकारे॰पीरकु
रीगलीधारे॰॥पद॥
सतगुरकिरे॰सुरा
होकुरसरहेपीछीरे॰
आंनदघसांभक्ूधाए
रे॰तांहांलपनराख्ये
आपणारे॰पधीपछे

नीमंडाधाएरे ॥ परा

सतगुरफुवरे ॥ मुझा

सीलनांमन मुझांरे॥

झांनंदर तीहांपेझांप

रे॥ लेपांयततणपु

पतपारे॥ तेलंपापे

झलपानां परे ॥ पड।

सतगुरफुवरे ॥ लग

तांसपनरधंनलझां

रे॥ झंनधंनपंतनां

दीखांपुहीएरे॥ पणधं

नपंतातसेंन्नांभी एरे:
नेलीपरीतपी ढ़ेसु हीए
रे:॥प४॥सतगुरे रे
तेरे:॰ सीढ़ंनसंभीभा
परेरे: नेभां केछेनभा
लेहाप रे: नरा भरपा
जांने नहीरे: भ्रांने भभ्रा
पपुभ्रापे स्रापेरे:॥पप॥
सतगुरपीछरे: भ्रां भीपा
ढ़ेपमढ़ेठरेरे: भ्रांनेनपा
पीढ़ितरखापभ्राऐरे:

चीतं नपीदिनं मज्ञ दांना
नीरे॰ते महरीनांसे पीपा
तकुनाएरे॰ापदुासत
गरकुहिरे॰भावीसीसप
घांडीएरे॰अंनेमांहिनवा
चएिजापरे॰एपांन नंम
गंमापीपरे मसु रे॰तो
पाघीएं॰आपणपीपरे॰
ापणासतगरकुहिरे॰पी
रिपीरिकुरतानगानआंवे॰
आंनेबीाले मुखा मनमपा

तरेः पीह्रि पीह्रिजपतप
फुरेरेः पणङ्कीर्धनलांणी
धातरेः ।।पट।।सतगुर
फ्रिहिरेः द्यातक मारी सी
पूनरेः ऋंनेमालिसाथे
सेरेः सीधर पीताऋा
चुणीरेः तेफुदीनऋापके
रेः ।।पट।।सतगुर फुहि
रेः परेम पीऋासीमंन
पसीरेः लां मंन प्रांफ्री
नेनहिरेः लेदंनीऋांद्दरी

हीरे: तं परमात भ्रुरा पांणा
रे:॥८२॥ सतगुर भ्रु हि रे:
पांणा परमा द्यांग णाभ्रु रे रे:
नगार्ण नेहीमत वांणा रे:
तेरणां मिवावि छु मुडा रे:
नेमगापुणमं नजु हि पांणा
रे:॥८३॥ सतगुर भ्रु हि रे:
[illegible]
[illegible]
[illegible]
रपरगाडारे: पपांपडे

सो पंडित हीरा ए रे ॥ ७४ ॥

सतगुर कहे रे ॥ पंडित पडी

आपणी तक रे ॥ [illegible] ने सा

मान लीआ से र रे ॥ पूरा

नी जोत शी दासी आ रे ॥ ते

पडी आ गीत फेर रे ॥ ५५ ॥

सतगुर कहे रे ॥ फेर पडी

दीन पी पहती आ रे ॥ आने

मंदर मां हवे ही ए रे ॥

नेन पसा हासे ले पूरग

डा रे तेनी मेर मनां पू

४०

जी कीए रे ॥ ६६ ॥ सतगु

रु हि रे ॥ [illegible] मारा [illegible]

[illegible] रे ॥ [illegible]

[illegible] रे ॥ [illegible]

[illegible] रे ॥ [illegible]

[illegible] रे ॥

॥ ६७ ॥ सतगुरु [illegible] रे ॥

[illegible] रे रे ॥

[illegible]

[illegible] रे ॥ [illegible]

[illegible] रे ॥ [illegible]

तिनपाएरे: गावडगासत
गुरवेहेरे: पीढीपीढीउर
तांपीढीमदीरे: अंनेस
रढीपरलशीआलारे:
सांभंनवाळीभाग्रपारे:
जेमनाजीनापेपारवे:
गावडगासतगुरवेहेरे: गु
रगांनांनीजगामांपीत
जन्मांरे: अंनेमरनांम
तपेलापेआपवे: जेमरे
मनजाणीमुजपडारे: तो

ऋदश्राप्रनांपापरेः

गज्ञ॰।सतगुरकहीरेः

पापपूनाळांळीडीएरेः

जोतांनऋश्रापुश्रा हीएरे

पुळांनेदंमदुरे नांजपी

रेः तेदंम नांप्रजेकीए

रेः।गना।सतगुरकहीरेः

हंसेदंमे हरीतेनपीए

रेः ऋंने ऋधरांचंतन

नाएरेः पीदु पटांतरे

रतीनारेहेरेः जमसा

हिरां सिहिर सें मांएरे ०॥
॥७२॥ सतगुर कहिरे ः
जपुरी जापीला पडारे ः
अनरे हिणी आपीहाथ रे ः
बांहे पहिडे नांजपी रे ः तो
पीडि सुकुर नीपातरे ः
॥७३॥ सतगुर कहिरे ः पा
तिपडा नहीं छेएरे ः अंनेकु
रोसा जा मुष्य नां मरे ः ने
सा यापं नांज पडां रे ः
ते हिन डभेडा गांमरे ०७४॥

सतगुरफरमेरे : दिलऽखेड़ा

फरपसीरे : आंनीनरधेनी

आंधनहीएरे : पछीएछु

आंपार्दधीआंरे : लेषु

आनलपेखीएरे ॥१९॥

सतगुरफरमेरे : सुनीप्रल

तेसफुरे : आंनीनागती

नीतनपाएरे : प्रतीत

नआपीलांलगीरे : तेल

पपारिजाणमांनाएरे :

॥२०॥ सतगुरफरमेरे :

श्री

सतीसतीसभउडाङुहिरि:
आंनिसतीलिपरलाङुिएरि:
सभनगासुिए निआपना
गरि: तीनाफुर: हरसण
हिएरि: ॥७७॥ सतगुरडु
हिरि: आडसहेतीरपेग
आंखे: आंनेहिलांहेपआ
नंतरि: मे आपिहिपलहि
पतारि: तेरखिसर: रहिप
संतरि: ॥७८॥ सतगुर
डिहिरि: आडसहेतीरपेहि

टी ऋांरि॰ ऋं नेप्रती पां पीड

ती पां पारि॰ नेह्नि नडपरऋ

परी पालो रि॰ तेडि धसापा

पेम्मांनरि॰ ।।७।। स तग

रछिनि रि॰ घर मंतीर पस

न पीक्ष नारि॰ ऋं नेघर

मिंघरं म दी ऋार रि॰ नी

घर पिहिपचपूनाए रि॰

हीघर पि मृक्ष पीगते दे

दार रि॰ ।।८।। सतगुरछे

हे रि॰ घर छपर हीपडारि॰

श्रींनि मांहिकुं पीरात रें: पे
कुट धीनां मांहिरकुं रें: ते
मांहिपीकुं स पासा प रें:
॥८॥ सत गुर कुंहि रें: गि
आनें मनां सरस्ती रें: श्र
नी नाएं माधु पीस पराग
रें: पणं श्रांतर धागा नहि
तरें रें: नें मलीलकुं रासा
गरें: ॥९॥ सतगुर कुं
हि रें: तीर पतू पीणी नाथी
एं रें: श्रींनीन पीएं श्रन पा

नापरि॰ नीपांचपपीऌ
झीनाएरि॰ तीष्ठापानांना
पेपापरि॰ ॥८३॥ सतगुर
कुहिरि॰ पंरनंदांघरपाप
पसरि॰ अनंकुरे ज्ञनांणी
पातरि॰ नरगपडेनापपी
तातएारि॰ पधिए ष्ठादर
सीसापरि॰ ॥८४॥ सत
गुरकुहिरि॰ नानीन्ही नर्पा
लीएरि॰ अनंदलनी तुरा
सीताअरि॰ दअसंसा

कोई मंत नही रे ॥ अंत को
पै नारांण नामे रे ॥८५॥
सतगुर केहे रे ॥ पूरण प
रीत पीछे पसी रे ॥ पणप
रीत दूर न होए रे ॥ जे मन
म मांप सें कुमपा रे ॥ ते
ने अंग नांनो हुको ए रे ॥
॥८६॥ सतगुर केहे रे ॥
जलकुं ते पाणी जाणनां
रे ॥ अंने पडे परे मकोघा
ईरे ॥ जीपीडा जगापे परे

भुझा रे: तारिहे घणी नी द नक्रा
ऐ रे: ॥ ६ ॥ सत गुर पीर रे:
नी हुसन शारी भ्रुं ब्रुरे रे:
मि ल्पं ध सहि ऐ हि रसी नक्रा त
रे: ॥ पाब्रि पीर्ब्रु रे तारिहि
घ्रीगर्य रे: पधनिल नक्रा प
रनात रे: ॥ ७ ॥ सत गुर
पीर हि रे: प्रर नातिर पी
रि गी नक्रा रे: न पर्व पूल
नक्रा पुर प्रा सरे: नांहि नी
ऐ तांहां तेव पारे: ऐ मक्रा

तर पीहि पासे रे ॥ ८ ॥
सतगुर कैहीरे ः सीनांपि
थेथीसनं नपीना ए रे ः
अंनें मींतीकीरे मुपारे ः
तेसनं नकें मघाडीएरे ः
नेजांपुांकेरे वीजाल रे ः ॥
॥ ६ ॥ सतगुर कहिरे ः पी
जितें पांनें वीना एरे ः मुं
नेपीहिर देमांपघांइसरे ः
नीशर के साचे हरी मज
रे ः तांए मांघामतनांइ

रे ।। गा ८ ना ।। सतगुर रुडे हि रे:
सरखी सार्ति लीला ऐरे: आ
नपी द्वि वि आता हार रे: ऐ
कुसी कु प लंल न कीला ऐ
रे: हा पू हीलें सर पार रे:
।। ८ ९ ।। सतगुर रुडे हि रे: आ
सकु पाडी न नी प र्ल रे:
भी न आ स कु हा र न वे आ
ऐरे: आ स कु ह र्घ ड नी प
नेरे: ते कु प ल न की री मा
ऐरे: ।। ८ ३ ।। सतगुर रुडे हि रे:

परे भरे स अती भी हडा रे:
अं नी नें कुं थीई खेथा खरे:
साहेली पापे सर लगी रे:
तीहां घडी हीपे साख रे: ।।
।।८।। सतगुर केहे रे:
हरी रस जे पीआली एरे:
तेअ परां भुख न भाए रे:
पर पीआ तामं न भां रे
हिरे: ते हरी रस पीआ
एरे: ।।९।। सतगुर केहे
रे: भुन पेरेणी पापी पीए

[illegible]

अंनेपाखरखेलेनेगु
रि:तांहांनाखगुहारीजु
जरेरे:पपलीएनुलाने
खांणरे:॥१२॥सतगु
रजिनिरे: लीलाजेरघा
हीरआरे: अंनेपांपति
णीसंनहिरे:पणासुखा
सालखमाशाजुांनांडी
रे:नेजिताजुथलामेहिरे:
॥१३॥सतगुरजिनिरे:
गितिनेपंडीएरे: अने

पोसित नीक्षांपुरिं॰ प पुर
झोलनीोनमं नें पीक्षारिं॰
तेंनांक्षानसांवष्मांपुरिं॰
॥ १००॥ सत ग्र रक्के हिरिं॰
नूजापंनापपाथक्षा
रिं॰ क्षां नंनं मीतक्षाप्त
पेपापरिं॰ मीरासीपा
रनपक्षापीक्षारिं॰ पण
नमारांपांमक्रापरिं॰
॥ १०१॥ सत ग्र रक्के हिरिं॰
पांमक्रापनंपीपसक्र

सांईः तगमांमरीमरी है
पेपाऐरेः पणसतगुरसा
पीपीलाऐरेः तोलापमु
मरापरलाऐरेः ॥छ० २॥
सतगुरकेहिरेः दनीआं
लांणाद्दरलनरेः आंतर
कितकरीसकलाऐरेः लास
तगुरहीपकपीलाऐरेः
तामांहेदरपीकपाऐरेः
॥छ० ३॥ सतगुरकेहिरेः
दनीआंरंगदी।मपीरेः

अ्रंनेक्रोधनां भ्रमनी नीह
रि: स्रुमां पूर्ण पहरनमां
रि: नेपांमि पीतांवि द्द रि:
॥कृ० ॥ सतगुर प्रकि द्द रि:
द्दनी अ्रां द्दाड भ्रांत प्रुरि रि:
प्रह्लाद रि ज्ञान पावि क्रोधे
रि: द्दिलड घर नघ्रिड तरि
रि: तां फां क्रोणप लापे ता
ए रि: ॥कृ० ॥ सतगुर
प्रुद्द रि: साथी भ्रा रि द्दाडी
ए रि: अ्रंनेन सतगुत्रां द्द

रीपाटरे: पछे जीवंतो
तांलीला एरे: तीनोहि डा
पापीपाटरे: ॥ छंद ५॥
सतगुरु कुंहिरे: सत श्री
पाटढुली एरे: आंनो ढुट
तांकरी ने पाएरे: नेकी
नगातापातापांस पा
रे: नेगुरु जमाहि पीछो
जाएरे: ॥ छं० ६॥ सतगु
रु कुंहि रे: पगाले पगाले
सांधी एरे: आंनी जीधी

[illegible]

नीलीनील लपुकार रे:
सांभीत अपुती एम लपुंरे
नीन लपुंपइअपार रे:
॥९९०॥ सतगुर पीर हीरे: गुरु
जगदी दीन आरतारे: अंन
पंन मापातापांसरे: ए
तीमं लअ आई मापल
रे: नेपीघी दीसालापसरे:
॥९९१॥ सतगुर कैहीरे:
कोलअं मारा सायहीरे:
अंनेसामामंनपतीआ

५९

एरे: फरी फरी नही आप
एसेरे: एको तूसीप छुी
नाएरे: ॥१५॥ रासतगुर
छुहीरे: गछगछपातीले
छुरेरे: आं नीहालरनांपू
आलीदरे: पारलगना
लोपलूली आरे: एमपा
लेसतगुरपीदरे: ॥१६३॥
सतगुरछुहीरे: परतछुरि
गेपूरगाडरे: आंनेजी तू
पंदरनांहीाएरे: लेसीापू

कुपानाथिंगी आरे : तेनी रे
हिरानां प्रभु ने कांऐरे : ॥११॥
सतगुर कुंहीरे : कुलवगआ
वीपख्खडोरे : अं नेपजाप
खडी पीहीरे : पीरसं भोकोर्ध
परीतन हीरे : आलकांधि
कीनीनां दीहीरे : ॥१२॥ पाति
सतगुर कुंहीरे : कुलनेगा
मांकोऐ घर नहीरे : अंनेक
पीरसरपी संसाररे : पण
परपंनानें कोंधिमालसे

रे॰ ते भाहाईं न भांजा सेहभा
ईरे॰ ॥११५॥ सतगुर रेहे
रे॰ एर श्रीं पासा श्रीसतगुरे॰
ऋं नें सतगुर पाए जालाए
रे॰ पणसतगुरनें भाली
ऋारे॰ तेजा पजाहिर हिरा
जाए रे॰ ॥११६॥ सतगु
रुहेहिरे॰ नाएं जाझलपह भां
हेभ ऋापीऋारे॰ ऋं न भजा
जांजा नां सीहा ऊजा वरे॰
नपांएड रे डाईहपतारी ऋारे॰

तेंसी नेंआलोंमे मदो परमां
राल रेः ।।२८।। सतगुर
कींहीरेः फाटेलाकुलफमां
हिपआपीआरिः अंनीमे
घमखीनांखीदांखांमरेः
नीषपंनकुरिाडीला पतारी
आरिः तेंसीनेहीदांआंमरेहें
मरेः ।।२९।। सतगुरकी
र्हारेः आरनलाकुलफमां
हिपआपीआरेः अंनेम
खीकेंनरनांखोदांखालरेः

भत्रीस पुरे ठाडीजप तारी
आरि: तेहि नआलोपधी
पूरी मांहे सालरि: ॥ १२० ॥
सतगुर पीरि हरि: पुरि रतान
गमां परलोक तारी आ
रि: आने सीधा पांथ पुरी
ऊरि: ते पांमि सतपंथ पूरा
सेवी आरि: तेहि एरि मांन
मांन आं एरी छोडरि: ॥ १२१ ॥
सतगुर पीर हरि: त्रेतान
मां हरीचंद तारी आरि:

अंने पाखड कुडी स्नातरे:
सती ऐसि पासे सतगुर स्वा
म सुरे: ते कुरतां सतनी
पातरे: ॥ १२२ ॥ सतगु
रु फिरि रे: हीपापर जगमां
पांडु पतारी आरे: अने
कुरीडी न पन्नां खीधां खो
मरे: तांहां हैती गफ्नां मां
सती पांचं पीरनी रे: ते
हिर्पेन गमां रांश्चनाम रे:
॥ १२३ ॥ सतगुरु फिरि रे:

आकुलवनगमांहांसीदर
हीनेतारी आरि ः आंनेसा
माकुरीयाडीच्यारेर ः नेसा
मासरपंथसीपी आः तेहि
हीवलनक्षीदीपारर ः ॥
तगुरु४॥सतगुर कुहीर ः
सीनासीधणपतजीर ः
आंतदीसेजगमगनीतर ः
वैकुंगुरनरपतांपरम
सुरे ः आगमलखीआ
कुरोडीआनीतर ः ॥गुरुप ॥

सतगुर पुछि रे: श्री हर हीन
एमप्रीयाली आवे: कनेसा
लपीया भुनी पर लिखि कु: ए
तु एक लख फुणं धार जुनो
रे: एमपीया लिआ पीर पद रे:

गु २५

श्री सतगुर जवं भा प्रासा:
नारे सती श्री सपती तइ हैप
डा: हा पिंगा रे ति पोती ड [illegible]
भाया रे: नारांप परलीन
रपी आ: ।।गु।। नारें जगामां

५२

रे:पापाञ्जापीाद्रकुडीारे:

ानुलापुंनारेसतगीारम

रेमाञ्जीमवीालीञ्जारे:द्वि

पावीाालोाछंदंमदंमक्रा

रेरे:पापाञ्जापीाद्रकुडीारे: २८

०००००००००००००

श्रीसतगुरपरेमापापा:

रूपरतापेसरसतीपरपू:

मारेमुगमडलेभाञ्जीापर

संतरे:गीापंदगडएापरए

पे:ानुलानारेनकुपंकी

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

रेक्रोडफ्रेंनानेपरपांनीश्री
तपणोः परपसंमपरांत
नाश्रीरेः मांडपईसांनेत
मपीः ।।पृ।।नं मीश्रींसमां
तश्रीमर मांडपेः श्रीसर
इसामांशीपापीधेंनरेः
मांडपईसांनेतमपीः
।।९।।नपरंगीमारीपी
तरापसीः तांहांकेनरेडं
श्रींतापंमसारेः मांड
पईसांनेतमपीः ।।७।।

मोहोसुरजंधणीमांसी
लतां: फरतानवलख
तारानातेजरे: मांइपडे
साजंनमकोः ॥१८॥ अ
हलपंनपीरीबंधापरो
गोरखरंमालापांचेवेद
रे: मांइपडेसाजंनमको:
॥१९॥ आखूगाइनारेता
रगाबंधापरो: हरीनेंसा
थतआपिसलहारे: मांइ
पडेसाजंनमकोः ॥२०॥

पिरू शांइजी मे गतीना दी आ

र॰ कोइ भी तो पर स नीना र

रि॰ शांइ पडिसानंन मजी॰

॥२१॥ आकी जी शांइ पि र मिस

र शाम सी॰ गत शांम जीम

जी जिस ना इ रि॰ शांइ पडिस

नंन मजी॰ ॥२२॥ मारि न

गुनानां नी आम इ सी॰ मे

इी शांइ पि फुर सी सिजां इा

रि॰ शांइ पडिसानंन मजी॰

॥२३॥ पापा पिरी नीप रखी

डेमडरी: सारोषेसहक्रापे
तीलहारर: मांडपडेसानंन
मपीा:॥२४॥ भांहारु रुन
पागडेसीलतां: श्रीपाती
ताभंमङारर: मांडपडे
सानंनमपीा:॥२५॥न
ङलंपीभापीभापीपर
एसं: सतीश्रीमपीनेमं
गपगाश्रीर: मांडपडेसा
नंनमपीा:॥२६॥ भांडु
ङभातीश्रीसतीश्रीपदापे

रे॰ तां हां पर खूंना तिलां छे
नींदरे॰ मांडप डिसा लंन
मफीं॰ ॥२१॥ तां हां म्रा सी
मम्रि पी मागनीं॰ नम्रं
पर म्र पी म पमान रे॰ मां
डपडिसा लंन म फीं॰ २८॥
पर डी नि पर सीं म पारि
पधार सीं॰ तां हां म्रा लेर
खिसत निरान रे॰ मांडप
डिसा लंन म फीं॰ ॥२९॥
गतेगंगा॥ धीर सं नि मेगा

पा॰ तीने अंतीछे अंमर

मारे॰ मांडपडे सालेन

मनो॰॥२०॥ रीसरा5[illegible]

रमेसर मील सो॰ फ्रा पा

फ्ररीछ लील पर हरीने॰

मांडपडे साल न मनो॰

॥२१॥ सतगोर मले मा

ला श्री मनीला ली भ्रा॰ द्रोपा

नीलां धी भ्रे मर पांप्रारे॰

मांडपडे सालं न मनो॰ २२॥

पांछीमामनछ

श्रीसतगुरपीरशाहशाशा:

फ्रेलारेंशालीसतीश्रीस

ईमदीनेलीपालछश्री

रे: श्रीपएानरहरनेन

रमपाश्रीनरे: नरम

तांमेनेंधासधएीरे: २॥

डेलारेमांएाडेंकमातीनी

भालेनश्रीपीश्रीरे: या

लालीपालछश्रीलनाल

पएानेश्रीलरे: हरीप

रलेलछश्रीनरमपारे:

॥२॥ वेलो रे सरी फरमानों
तारणां घा पीआं रे॰ जे
नींदा पारकी लीसती आथा
रहें॰ हरी परने न छीपेन
रखपारे॰ ॥३॥ वेलो रे
जंबु दीप ना लोक सीतंम
ने पीन पत्र रे॰ तंम पे हथा
रज छीने पीछे जूपा पनो॰
हरी परने न छीपे नर ख
पारे॰ ॥४॥ वेलो रे थो
पेदी भीरी रचा पसे रे॰

परनी त घ्क्री न र स पा रे :

॥८॥ छे जा रे नी ला पा णी मे

री मी त रा प सो रे : ता हां स

री फ प हि ता मा पे ते फु पा रे

रे : हरी प र ने त घ्क्री न र स

पा रे : ॥८॥ छे जा रे मंन त

न म्रौ री मां हि मा प सो रे :

श्री ने हि मा प सो ह र जा त

हा पे रे : हरी प र ने त घ्क्री

न र स पा रे : ॥८॥ छे जा

रे जां न ख ख्मा त डा धी नां

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

धर्मीनरखपारे॥ ॥२॥ कि
जीरे तडा पांछी वले सेरखा
पांयेपांऽ पारे॥ तेतीनप
डरोडीनआगी पांपारे॥ ह
रीपरनेते धर्मीनरखपारे॥
॥३॥ कि जीरे तडा पांछी
सतगोरसाखीआरे॥ तेती
प्यारकुरोडीनाखालप्यार
रे॥ हरीपरनेते धर्मीनरख
पारे॥ ॥४॥ कि जीरे तडा
पांछी कुर फाडल फनाईप

तारे: आरंभनांनि आपां

ईछ आपाररे: हरीपर नेनघी

आनरमपारे: ॥ ७५॥ पुं

नरे श्रीजीपर नीआपी

पार्टिलिस सेरे: आंनेहा

भीपालीजालीतणीपा

रेरे: हरीपरनेन घेआन

रमपारे: ॥ ७६॥ धुला

रेपसंस फूआरीनरपवे

छुसेरे: तांहांमरेमाला

लपातलापेदरे: हरीप

रेनेलघेकिरि नर संभारे ०
॥ कल॥ छे बारे सतगीर सं
भाक्रे म पीरसीक्रारे ० दे
म पीरसीक्र पेर केहता है
डारे ० हरीपर रने लघे क्रे न
र संभारे ० ॥ ८ ॥ ० ० ० ०
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
श्री सतगोर सरे माया ये ०
के ला रे न कुल पुरी न पस
नेकान रे ० मांड प डे हर
नीर थी रे हारे ० ॥ कल ॥ फे

१०

वारि तेडि तेडा सती ऋा वी

ऋ आरे ः मांडपडेल ली

रंगरि स्री रे ः ॥२॥ केला रे

डालवाने दं मदं मवार

रे ः पालंत ग पालि परे म

नां रे ः ॥३॥ केला रेता र

मांधा पीरा हरी नेह ऋार

रेह सीऋा गरणा ऋा पे सान

वांरे ः ॥४॥ केला रे सतनी

सोणा पैऋा नि ः ता ढ्नो

कपाली नीर नारे ः प ॥

डुला रे भीरी ने पातरा पा
धे सार रे: पीतारे नलो
पातरी रे: ॥५॥ डुला रे प
नर ५ नां पु म म छ मार
रे: भीरासी प्द रती पांप
डी रे: ॥६॥ डुला रे सात
सरी पर नां पांपुमेन
रां रे: मा रे न प सीन पां
ड्स र्थ रीसा प रे: ॥८॥
डुला रे क्रा पे धे जां त्रीक्रा
रप्त दे सपीलां नरे: तनां

सूधी पंथ परषासे रे ॥ ९ ॥

कूडा रे मोटा मोटा रे थी स

रसे नहि साध रे, पर रे जाणे

पंथ नां नहि आवे रे ॥ १० ॥

कूडा रे पांसां छी जो कोह हरी

नो हुंधार रे, सादीप्प सकु

रपूती गी ताकुडी रे ॥ ११ ॥ कि

जरते डा ते डा हरी मंदरा

क्री रे, पांडपनां ने आप

से रे ॥ १२ ॥ कूडा रे नला

नलानां न थी आस हिसा

रहिः मांहेनने मिलेञापा
मणीरेः ॥१३॥ छिना रेन
छुंपां छीन पसांघ भाघाः
परभडसी घोडलेंहां सवे
रेः ॥१४॥ छिना रेञी मवे
लांसतगोरभ रे माहोप
रेः सभीञारामडमंनपा
पलिसरेः ॥१५॥ ॥

श्रीसतगुरभरे भापापाः
श्रांहीनेमीरेमंनपा१६।

९२

जागारे॰जंमगीरपरपा
चळीद्यागारे॰॥१॥हीनां
म्हारे मंन डंख मे पारे॰
जंमगीर आंधारड दीपा
रे॰॥२॥ जोजी आलीज
नांखीजेरे॰ जोजीने हीन
कुमांल वी दीजेरे॰॥३॥
हीनकुमांहीआसंगुणी
आसारीरे॰कुळमांहे उा
अमनीअसपारीरे॰॥४॥
हरननांपीसाहेबनेडा

रे: आगम सर रस रहो से
नी मिडारे: ।।५।। पसं मु
कु आरी खाखी जणी अ
रे: जडधार आ लीस र
खाग णी अरे: ।।६।। खां
डी घी खाख ने भडु पली
रे: पर णी छ त्री नी पं ना
अँ ली रे: ।।७।। सतीडु नो
आरो उ रा इ ख णी नां षा र
रे: इषत ने धार रीख धां
धपीर रे: ।।८।। मेतेरप

रम्नतपांश्रीलीश्रीसकडीलि
रे॰ सांभीशनोत्रांणंश्रीस
तीतिखिरे॰ ॥८॥ परना
तेउबाळडीआणंभपानिरे॰
खतरमीरांनीसरघानिरे॰
॥८॰॥ सतीदिनामांफा
नीनीतरावीरे॰ नांभूदा
पमांधीडावीरे॰ ॥८८॥
सतीदिनांमंनमांदुंमेपा
रे॰ नांभूदीपमांधीपीपारे॰
॥८९॥ सतीदुयारमंग

भगापिरे॰रभिसर भांभि
रांलषीआपिरे॰॥२३॥
भापलरांमतजीनीभि
लिरे॰दैपकुरीड़तित्रीस
पर्षकृ8 मेलिरे॰॥२४॥
श्रीदिपआगाजपासीद्धा
रे॰श्रीपुधरेलपडानी
पंनारे॰॥२५॥भीलती
आपीरसुदर दीनरे॰र
भिसरसांलजलीश्रीकु
द्धांनरे॰॥२६॥ ॥ ॥

श्रीसतगुर ब्रह्मा प्रकाश:
हेली ॥ प्रान्म्रि म्रआपा नोले
अनंत ब्रह्मा पांन्मा: सपो
भीन्मा पडीा तीजीा परनी
रानां॥ ॥ हेली ॥ ज्ञाप
तपर गार साहीनि अनंत
भ्रारधि: सैपाप्रु रे सेसे
वृधी सनी: ॥२॥ हेली ॥
हिये मलस पां नं नी से
द्दोलंधी पा: रनी सरहैते

द्वीप नाः ॥३॥ हिन्न ॥ ड्रास
मेर नगरी माँलीबलिस
रषः माहासतीपुरण
द्वीपं नाः ॥४॥ हिन्न ॥ अ
हारखाम तें नामदुड्डा
हीद्धारीः तेसेंपासघांमी
नीआपां आः ॥५॥ हिन्न ॥
दीलैपनगरी मां हीओ
तं मठांमः तांहांलीसी
सें हेपद्वीपं नाः ॥६॥ हिन्न ॥
मद्वीहखाम तें नामपुरा

हाधारी ः तेसि पासपांमी
नीआपां ः ॥६॥ हिंजा ॥
नगरूआं भर डीवटनले
हरीहसहि ः माहावप
नी मादिपंना ः ॥७॥ हिंजा ॥
मानीसलाखतेनागध
हाहरी ः तेसीपासपांमी
नीआपांआ ः ॥८॥ हिंजा ॥
डिमतनारध प्रीआरण
णमडसे ः संगीसेसत
हासेनी ः ॥९॥ हिंजा ॥

छतरीसलाख्मतिनाढंन
कुरंबिढारीःतैसिपास
पांधीनीआंवांआा॥२२॥
हिंज॥नगरपंपापुरे
लेपसलीधांपःतांहां
पांडपनकुनहिपंनाः॥२२॥
॥हिज॥पंचासलाख्मति
नातिनाहोढारीःतसि
पासपांधीनीआपांआंः
॥२३॥हिज॥रीछपांहर
तीनीआंणगणतृपार

[illegible]

[illegible]

९९

मारपुरेडीरुगीर साह
रपीनः वेदरीआनैपा
रपि तारंआः ॥२२॥ हीजा ॥
नांभानपां एक छ पंनपु
रेडी आंपीरेपि पीधाः
डिनर भजीपुरीआपांः
॥२३॥ हीजा ॥ अनंतपुरे
डीआंपारहसंनसाहाः
पुर एक नादपजीजापांः
॥२४॥ हीजा ॥ नपपुज
नाग भाहिपां संगाराजाः

तेसीथास पांथीनीआपां:
॥२५॥हिंज॥ नरहरी फ
रेहर सखां मी साहि॰ फ
जफरेड तेत्रीसे पात्रां॰
॥२६॥हिंजा॥ क्रिसी लाख
हिंटगजतीरीग॰साहिंज
रीसनाभजापी॰॥२७॥
हिंजा॥थीएानगरीमांक्रि
कहांएापसीएाीक्रि॰क्राप
तीएहिंबडांक्रा॰॥२८॥
हिंजा॥अनंतपंहमलट्टि

૧૮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दस ठ तीर धर्मां पीन गस
नां: प्रां श्रि न्रल आलां भी रि
गां भा री: ॥ प ॥ हि ला ॥ नी
न ध श्रा पि ग ंगा तेन भ
नां: ती श्रि नां प ती के रे सा
चित्रां: ॥ द ठ ॥ हि ला ॥ केरा
श्राप पो गं गा ली ला पां: २
गं गा ली ली भा री भा धि:
॥ ला ॥ हि ला ॥ गं गा ॥ श्री रूप
फि रा पा श्रा: श्री ल भलां
हि र पा त दि ला ड ी: ॥ ट ॥ हि ला

[illegible]

realpatidar.com

लफुररि अनेदी :॥१२॥
हेजी ॥ आंणिपंथिसी धा
फुरीडी सिसतृ आ।ं सी:
तेषपासेपा ग्रीपीता आं:
॥१३॥ हेजी ॥ आंपीपंथे
सी धाफुरीडी सेपरेला
ल: सातिहरी भंद धाआं:
॥१४॥ हेजी ॥ आंपीपंथि
पिसी धाफुरीडी नपसु
नलैसरपत: प्वारिपारे
मपंदपाआं:॥१५॥

हि। ताम्रां एघे हे प्प रं मा
नी पी सत न प प्पे है। ः धसि
प र प्रु री नि प्रुं माधि ः २५॥
हि आ। ताम्र न प्पि प प्पां तं मि
धूडां न भा लीं० सत गी रि
धु हां है सा थां स्रा ः। २६॥
हि आ। ताल धि स्रं ह र धि मां म
स फा ० सां न जी सपां
भी नी पा डी ० गी र प्प रं
भा सी भ ए हा रा स्रा ०

२८॥

श्री मपत्रे पर सवा [illegible]

वीछी काढ़ [illegible] मानीलपी

छेनरीव्या ध्यो कोम्हा म्हा तोड़

चरा: तोमढ़ डा तो गढ़री ऊपा:

तो ढ़ [illegible] पे ऊपेपप ० म र

नले मनरस्य ले मनरस्नढे ०

नो मक्ते [illegible] मे री नोग गंजो

[illegible] गपराघे मावरमा

[illegible] वापावा पाक [illegible]

[illegible] मा

[illegible]

C2

[illegible]

श्रीसतश्रीरमरेभावाभा:
हिजा।।अ मंन मंनन सी
नजराणी।: आसतपं
पसार्थीसहीजा:।।१।।
हिजा।।ग आफ लछंडी।।
आरिजाघ:तीआ।।ग।।
सिंधानहीजा:।।२।।हि
कुपाळगा।मांप्रशंसी कु
डा:जाईनंत आ मीआं
पीआं।जा:।।३।।हिजा।।
सिंधिआहीआकडिहार

[illegible]

तगीरेनि पा श्री कुलेखा
लां॰ ति श्रु मंन पार लंघा
ज्ञाला ॥८॥ हिला ॥ पापी
जगीले गी नालू ला॰ तेज
मपापी पर लिगा ब्रम्ह ला॰
॥९॥ हिला ॥ कल लगमां
पण डीली पिमा॰ श्री कुपा
र साहा नँ पी ला॰ ॥१०॥
हिला ॥ नदू तासा ति छुडे
हार ना छि मा ज्ञा॰ ते सत
गीर ने पा श्री कु मालाला॰

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२३॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
॥२४॥ [illegible]

अंमारे सकल डी अंदर थी
मांम साहीं : रखीश नर
सतीया लीजा : ॥ ७ ॥

श्री सतगोर पीर मावारह :
हिजा ॥ तूत वस फा क्रीत
नि नीगीर वर रं मानीक
रखी : तेऊ मं न ला पक्र
मर लै हंगी : ॥ ८ ॥ हिजा
अंमर तली नंन वस
तूनूरां डा : पी पालाड

कुरंगी:॥२॥ हिला॥स
लरिसुनास जात्रपाहि
हुरीइ तां हां हुंस र हुं
दरमंगी:॥३॥ हिला॥
सूमाहा न्हा मही रखीसर
पिसी: मसतग मांहा
कुचसजां:॥४॥ हिला॥
हीरपाजडं तनेहीहा
जालिकिंहुं: मुमंन मां
हिमालंगी:॥५॥ हिला॥
पाकीजीहुं हुप रहतीरे

तीरथासें : तांहां छूत्र
रपूप्रसं लेंगें : ॥५॥
हीजा ॥ श्री तीमथां एा नी
थारजव्रछे : तांहां सें
वरंगीपलेंग पीछेगें :
॥६॥ हीजा ॥ तथतसी
नाद्रपानांही : तांहां श्री
पीश्रीपलेंहेंगें : ॥७॥ हीजा
छेधीपुजएाीनेसेतफी
ताज : पीसरथारय
लेंगें : ॥८॥ हीजा ॥ थी

रखांइ नेंगार पेआं परत
नीवनां. तांहां प्रेमेन
आरफु रंगे. ॥१०॥ हीवा॥
हीने नेफु सतु रीनापाने
सापासे. रातेअ भीनें
परंगे. ॥११॥ हीवा॥
आं परफुआनेअं परा
परभांपासो. वेफीधी
पांथे पाजगे. ॥१२॥
हीवा फांभफु रीधवाल
अफारपाधी.॥ वेफीधं

सची तूंकालेंगी ॥१३॥
हिला ॥ अद्वि इलें पंन डीस्ट
ला पींनासपांमी: ताहा
नूरी पंड धरंगी ॥१४॥
हिला ॥ ईड धूप मह मैं नज्ञां
ही लंकें पा: ताहां मैंन
लार्पि सांमि पा ज्ञां: ॥१५॥
हिला ॥ ञ्र डीडाने मीले
डुरोडी ञ्र नंत पार हो:
साहा डूनन रूहि पं गी:
॥१६॥ हिला ॥ ञ्रडीडाने

मंधेरे पंथा सहीसी: स
तीओ सरे पपा नारी:
॥ ७७ ॥ हिज ॥ हा भलीडां
लभने कुंपी परया वे:
तांहारे सो सा हाना दे हा
री: ॥ ७८ ॥ हिज ॥ कैप
न फुल अत्रीा नि मगा रसी
ना पर पुं: सम ही सत्रे
डजो परणा: ॥ ७९ ॥ हिज
गंतां न आ भार सलणा
आं दर चंपां प्रसाहा: ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पांडव कुरींड ची हांसी हाला:
॥८॥ थेपन कुरींड मेंघा
ची हांसी हाला: ए त्रीस
कुरींडी कुंवर ची हांसी हा
ला: ॥९०॥ भारी कुलप
सपां जी औ आगाल हरी
आला: हेत्र नां मंडला न
ी पांडी पडी आंला: ॥
९१॥ परागाप डनै पांह
डि पाठां थी हेप मकुं हाला:
लागी आपर मपरनल

रींमीआबीजा ॥ २ ॥ राधी
डपूफरे मांनदीआजा ॥
हपुं मसपांमीनेसला
साबीबीजा ॥ ३ ॥ पि
हिदलपनांपाप्रीआसि
मांसमाआजा ॥ रेहिर
पीआंगीरपरेंमाआ
आजा ॥ ४ ॥ सआना
जापसाहिमुमांनफीआ
जा ॥ मांदीस्हरजसाहि
नानूरनानीपाआंजा ॥

नुपाकुरतानिजनाभां
द्रीपदीघाला : पांअकु
रीडीत्रालापरलोलसी
धाला : ॥ २५ ॥ नृतानिज
नाभानृरिपृरीला : सात
पुरीडीरालाहरीपंरक
रीला : ॥ २७ ॥ दीआाप
रलनाभांधरभीतारां
ला : आटारपिणीपृल
पितरमारांला : ॥ २८ ॥
आाकुलननासंदिपीर

[illegible]

realpatidar.com

६२

सरणागतसाहिब सी
राख्यो ॥ २३ ॥
श्रीसतगुरुरुपसंभापापा:
हिज्ञा पि लां पि लां नाव
रूप प णी स पा सी दुरां
ली लीला ॰ लीन सपा
र पपी द्यान प्रलीला ॰
॥ लीलाश पारपि
वीज्ञा फल लज्ञलां पीला ॰
ना फल लतलिधरं सनलां
ईला ॰ ॥ २४ ॥ सांइ फ्रू सी

हीनें मांझु परदुरला :
गीरनरे स्वर्गी ॥८ डी घडत
थांनू रला ॰ न्हाधूरे म
पाताला छिन्ना घु घ घला ॰
पूरा मु मं नढ्ढ मांझु
तीजला ॰ ॥३॥ मांझु
सीहीनें मांझु पेदुद्रला ॰
गीरनरसु गीं ८ डीघड
तथांनू रला ॰ ॥४॥ आ
वेश्नं पांमी रानीपाने
सीपांएानी ॰ पानी छित

आपनें गुरु जसेनी खांपु
ना: ॥५८॥ कुल मां आपा
हीस कुलां न ला: रीख गा
ही दनें भ सले भां नला:
॥५९॥ रीप गआपां भ णान
पुस ला वि ह ला: रीपेगासे
हडानें फूल ता पी सालला:
॥६०॥ रीपेगाल रडानें से
वंत आपआं णला: रीपेगा
नीगीनें प लाप तापंथ
नी: ॥६१॥ रीपेगा ब्रंतानें

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

लाभीराजा॥ ३२॥ ॥

सीसतगुरपरंभापाया॥
हीजा॥ भ्रपक्षुपीयपातृही
कुरताजा॥ डोप्रेनहीतपतृ
हीकुताजा॥ ॥३॥ भ्रोपधंध्र
कारतंभिरयाभ्राजा॥ पेधा
पपीसपांजीप्रेछेडपीभ्राजा॥
॥३॥ तेछेडछेहीपरंभंडकुरां
जा॥ तडाहेपसपांजीप्रेतप
धरांजा॥ ॥४॥ नीजपवीप्रेथी

नूरे अरी म्मां ला: भेल पीदाव
र मेंडफुरी म्मां ला: ॥४॥ स
पतै साहिर नीर लल री म्मां ला:
महा रूपपा भा भ्री द री म्मा
ला: ॥५॥ मा री सं भा सुर
नेली गली दां ला: भ्रात भी
भली भ्री पां फां मपुरी दां ला:
॥६॥ फ्रीरं ल रूपीरा मत की
दी ला: मा री मधुरु रफने
दैहां ली दी ला ॥७॥ पेरा रूप
सैाव री भ्रो ली दां ला: मोरप

इधतकठुधीधाजा॰॥८॥
नरसंतीआपतारहरीमें
धरीजा॰हरक्षापुरसपइध
तमारीजा॰॥९॥श्रीपांय
पुरीडीसकपरिलाजतारांजा॰
श्रीरूलांमनतूपलाजग
मांकुसांजा॥१०॥पामेंन
तूपिलमनेधजीश्रीजा॰
श्री
पनादघपीश्राजीधरीजा॰
॥११॥सपतपारतीम
रमेंडुंपोजा॰मजइधति
परथेंभीमांमपोजा॰१२॥

ध आम्रपतारहरी म्रीली म्राक ः
रिस्ताम्र रजं नलीपंत रहीम्रा
जाः ॥ २३ ॥ फरसरां मरूपे
फरसीली घी जाः परथंमी
सरपे नप्तीप्रीहीजाः २४ ॥
रांमरूपं घापदीधी जाः सी
तापाजीने लंप्रांली दीजाः
॥ २५ ॥ शानल पज्ञीनीपाड़ा
ड़ीमाजाः दर्षत दस्पसरे
गारजीगीम्राजाः ॥ २६ ॥ रे
पुंपती जी नेरापताम्रा
जाः सातपुरीडीसरहरीमे

इलाशीनः ॥ नक ॥ श्रीरलों
नीधद्रीतानगमांखीधान :
वृडालंगातखीनानगमां
सीधाला : ॥ नटोखांनना
वृपेसांमतखीधीला : ताधि
धीगीस्वपडानाखीधीला :
तृटे ॥ नंमंनांमांनथडी
इहीधीला : संसनागसा
थीसांमतखीधीला : ॥ २० ॥
पेसीपीआनखानाना
गनाथीला : खुंमपनाला

रखी ली आधारिया जी ॥२१॥
कही छुं सांभर नां रहे रे साहां
जी ॥ ऋषा रूप हरी तां सांभ
लां जी ॥२२॥ सत मारी ने
जपवा ता जी ॥ ओ रप नां ते
अंतर ली तां जी ॥२३॥ रहुंडा
दीसोपंन मां नांड पडीआं
जी ॥ ऐ पीआ छार तां हां हर्षे
त दरशीआ जी ॥२४॥ पेहे
रवां ए कुर ते पांड वे नांडा
जी ॥ आप तार पाव दे गालो

९५

प्रला॰।।२५।।गी लीतू ला ली
आप नलांपि ला॰ नांरहि
स्वरन घापन्होंडि ला॰२६॥
राला हूर लेढेंनरघत सं
घांशा॰ नपढुरीडी स्व
र्नलीस्वरपतारांला॰२७॥
वीरलांपलतूधा आपन
सांपकीकांला॰ पित्रपतार
तेहरीत्रजीदांला॰।।२८॥
पीरस्वरहीनतं मस्वहर
र्पला॰ म्रलीत्रपाडाद

समीनार्जीना ॥२८॥ से
तर धीडी पाम्भी दीक्षा ना : अ
नंत पाप सु रवत पीडी क्षा
ना ॥३०॥ सपत लाख सां
द्रक्षां भी क्षै फु री क्षा ना : अ
नंत लाख सु रव नत ख सां
द्री क्षा ना ॥३१॥ सात
लाख थिंदी अु ख सां दीक्षा
ना : अ नंत त्रै पत तांदीं अ
धी क्ष ली क्षा ना ॥३२॥
फुसा द्रु द्र रती पीदा कुर

८१

सेल : अपारूपतो अली
दरसेल : ॥३३॥ पवंनपे
णीसीनथालेल : दरती
खांपी नीजारन आलेल :
॥३४॥ सरव मरत गापघ
आपड़ी लेल : नहीं खोज्ञ
नर आलीन ती लेल : ३५॥
अली आप रं मपर आद
लखा आंल : नसी लप
साहाताव दीप मां आ आं
ल : ॥३६॥ लाव दीपे आपी

नेमु मंन पिर ला पीजा: मु
मंन फिध रथी फु परापीजा:
॥३७॥ अंने फु अंघ पती
हांहरखिक पाला: अनेत
फुरीडी अंमरापनेलापा
जा:॥३८॥ तूफालीफु मगि
रनरसखी आला: तेतरी
सफुरीडी भारजनाल
खीआला:॥३९॥ लीध
एनाधं मफुालनखीजा:
साहामारिजणफुारापागी

४८

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मांनगांडापडसीनो : ४४ ॥
तपनईकाबीजीपरांडा
पीनीबा : सपना सांहा
नथी मारे तीनीनो : ॥ ४५ ॥
काठत एां मारे कार मांय
लीनो : सतकार मारे पात्रे
नेपलीनो : ॥ ४६ ॥ नीम
पंड थाँ नं मशानलोडानो :
मीएानगारी मारां करतप
मांडानो : ॥ ४७ ॥ नीनेड
नालतारीकांमनीपारे

८८

ना:हाषिहडालवयदयतनि
मारेनाश्री४८गलाखमी
शसीतारामरपरपलिनः
तैमाफुम्नलीनीनीदनप
लिनाःा४८ासखलासी
हान्मलीपखांपीना:नं
मूहीपनीपीश्रीदूपीम्नांपुड
नाःापःानंमीम्नांन५
जांधीनिखिलश्रीम्नानाडि
जीम्नाकुसंखनागसर
जारहीम्नालःापनाधु

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

रीभार्गिद्धभंकुना ॥९९॥
हाथीहनीसुरुसाइंनिरा
जंनमांहिघार्कीना ॥पाम
रीभ्रानांतीपरांघाढाजे
ना ॥१८०॥भ्रीपीभ्रानभा
कैहिरदईहीसिरपडसीभ॥
साहानाभतरतकीमहमं
नरैसीना ॥१८२॥हीरसा
नडंतरहारभांदिना॥
तिसाहाभ्रानीनापरापा
रसंदिना ॥१८३॥पेंहा

सुनेजतारा ब्रह्मन पाफर
सेवा: दर्श त त णातीम
सतगा पड सेवा: ॥६३॥
सेता थाले ने सेलू गावे
वा: गाशी आ बि परवत
मडला के जाने वा: ६४॥
जाली कुा बीगा ने म डक
पासे वा: म रे दर्शन ने
परां पूजा सेवा: ॥६५॥
सुा के भारी ने पूरा लीआ
वा: पाडी डा रने भेदान

१०२२

श्रीआण: ॥५६॥ अट्ठीहल
पंन मांहिगाजांपाण: ॥
साहाआवीनीपरतासी
आंणाण: ॥५७॥ नजोपी
रखुहरहीनजंनजुवी
रण: तेतीजांगृहीपमां
आपांपीरण: ॥५८॥

श्रीसतगीरपरंमापामाः
पीराजाहरि: आसंसार
समएकजुरीजाणाणीः आं

श्रेनहीः मुनिश्रपरनला

पेः॥ नूर॥ हीरिसाभीःन

सीरदीनफुरिघपीनतीः

मीरांतनरफिरापीः॥२३॥

हीरिसांभीःनलरफिरा

पोश्रुरपाश्रुफुपीःरदिमे

हिरनश्रुपेः॥२४॥ही

रेसांभीःफूलनपीनेता

रनीःश्रुपराद्नांनीसेः

॥२५॥ हीरिसांभीःलप

डांश्रफुमेलीपीनाझांफु

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मी॰ फुरनैा डीनाई ग्रामीन
वे॰ मीरां नन र फीरापीः
॥२०॥ हीरिसांभीः नन र
फीरापीा मर पासफुवीाः
रहेविहिरन आंपीाः॥२१॥
हीरिसांभीः नस्रीर दीन
वीालांपीनतीः॥साहिब
सतापीनाजीाः॥२२॥

श्रीसतगोरपरंपापामा॰
श्रीदरेमनैलाद्दांलाखे

ढां फुल डांः आं नि रे संतपे
रहीफुपारे रेः ।। १ ।। पे
फाने पोती रे फुल डां पछ
सरी ः ते जद ने सोपे दिप
ने हीआरे रे ः ।। २ ।। फुआंजे
रजाद लिआप रत नूआ
हरांः आंने ४५ र खे नना
पीपंथ नीली हरे ः ।। ३ ।।
५ मं नजाद आंखा रे पर
तसर धरांः आ नेसत मे
पनीनां पीछेले हरे ः ।। ४ ।।

पुन्आंनीचाडी रे पीरना
वधुआर थी॰ आंने रे सीतेधु
रुलीधु पार रे॰ ॥५॥ स
पां थी नी तुणारे नं नांआ
परसे॰ आंने लरवेलासे षी
धुन्आंधु थांआेरे॰ ॥६॥
नहीने धुंनां रे पी रानाथ
रुम्डां॰ आंने रे सीतेधुर
लीधु पार रे॰ ॥७॥ पपं
नपांणी रे आबे हीहांप
तांआ॰ आंने लघेलासे

डापासं मुखीरे : ।। ८ ।।
नेथ्रुनांसाथांरे सुकुरी
ततुपाडां : अंनेरेपिस
रथ्रुतरां पिर्जापारे : ।। ९ ।।
नेथ्रुनांतुमांरे नापीला
नशं : तेह्न मथ्रुतरेपेतर
एनिनदीपारे : ।। १० ।।
रानारां मेसी तामेला
पनमांहि : अंनेहरीमें
हेवमांधरनीनारे : ।।
।। सनगानसाहेबेधी

थुम्र रषील थ्म्रो: म्रांनेपां

र्मपां हिडंपॅम्रीगपींपंन

पास रैः ।।१२।। सतगौर

ष्पर भान म्रौ मप्मोली

म्रा: म्रंनेसांनपी भार

रष्मेस रना र्षरैः ।।१३।।

श्री सतगौर ष्परं भाषा था:

गौंनां नप्ली ल्वींर ष्मि स रन

हैल सां: मंनहषडा भांहि

रषनह भार्ने रै: ।।१४।। स

खांभीजा आपां नो आपा
नंद आं॰ आमें पेलां पर
थिमपीधांधिनां एरे॰
गरा रूप नीं तें नेरे सांपांभी
आगपां॰ आ ने तें नातेन
सां भनवीपा आरे ॥३॥
आंग निंद्रपी सर हीरखा
नपा हपे: आं ने हिलोलां
एते त्रीलोप हेहे रएगी ज्ञान
ल:॥४॥ नूरे ने परसे
पंकं भद सा हा रा ला आ:

१९३

श्रांनेसीमांश्रींगीारनीगा
तनेनंमातर:॥४॥नंम
संपुरपीपंनांरेपडासे
पांहडां:श्रांनमनीपं
नीपपुारसंनंमातरी:५॥
मरपेसंमारीघरनीश्रा
गपतघरे:श्रांनवुरिरं
गंपंसपोंरापीश्रीर:६॥
सदुरीवधुानेरनेसर
श्रीानमां:श्रांनगीार
परंमालापांश्रुडांना

अ रे॰ ॥८॥ वेजी नेतारे॰
सहं भई साहा राजी आः
अने द्रितारि कांकी कुल न
गपकोडा पार रे॰ ॥९॥
सतगोर पुरे भाखीया
धीनती॰ आने सांभजो
पीरा भी वीन सातरे॰ १०

॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

श्री सतगोर पुरे भा पाया॰
हांहास पां पीरा जाको
ने तमसम जापे॰ तारे

[illegible]

पीछ्रीनांर्सं ः श्रेंर्नेछ्रत
रख्यासिंदेहाला ः ॥५॥
हांहांहाऽछ्रडां द्रि पदेंपपं
नन्रू रंगें ः तोखि छुगाघ पुणा
पर सें मेंहाला ः ॥६॥ हां
हां ख्याल डीञां सख द्रि
दुर्घ ञांख्यासें ः तांश्री ऽ
लिन रर्ग्न ला मासला ः
॥७॥ हांहां पीराला सों
मलने दर पीञांपुणा ः तें
मोतसां मलसार्पि लेणा

नाः आदोहांहांक्षान्म्रा
ष्टीनेधेनेसुनानेत्रेपाः
तामोघरहीद्धारधीडे
पामाः॥२॥हांहांक्षां
म्रसामेशमेंनलष्म
पीपीन्म्रारीःतान्म्रेफर
पारपीन्म्रारांजाः॥१०॥
हांहांपीरुषाष्णुहाक्षमें
नष्टीनेःतोजोरपम्मंने
रुसपीणाजाः॥११॥
हांहांम्रेनेजांनांनपार

सं म स पोहोतां: तीर्थं सं
सारअंनें राजा:॥ ७२॥

श्रीसतगीरध्यारें भाषा था:
तूर्प पीसंसार मांहिनो
लतां: अंनें तू कूंहें नडां
र्पसरीर: नी मलछनें
परत आदरी: पेरनश
र्मारेला प: नीआं पूजे
र्छीने पपारी मालनो:
हपूसायर्मालनो॥ ॥

११९

गाश्वाम्रिरक्षांपर्धनीम्री

सर्रा:सहीक्तिनसपृसी

हिनार:सांहिपर्णलिम्मां

रिमागासीं:म्रानपुज

पुकार्नमुपतार:म्रीपु

जीर्धनपम्मारीमालनीं:

हङसाम्मपांलनां:न

रस्हरीनीलरधार:म्रा

धरंमस्ट्टदपापंक्रीं:

कुंभहितरसीरिपार:२॥

त्रांपूसीस्हलर्धनीनी

धीर्मा: तेनी मांहीहारन
धान्मा: मोक्षमडीनेस
हिपापरे: मोरीसघले
कुपाप्र: प्रीपूर्णाधनेप
वारीमालर्णा: तकुसा
पूर्णापर्णा: नरसुरने
नरहार: भाधरं मसहू
दपत्रांकुरे: कुमहीतर
सीरपार: ।।३।। सतगो
रधरंमानींडुसार्का
रनीपर्णा: तेकुहीर्णातीन

२२७

षार्गी: षांकुमडी नी संघि
पापूर: भरीसघपीड़े
पाझी: झीपूनीर्ये नीपमा
द्रीमालनी: दपुसा भूर्मी
लनी: नरसुर्लीनरदा
र: झाधरं मसुधूधपडां
कुर्ही: कुमर्ष तरसींरिपांर:
॥४॥ गीरनरपारभूला
रेझापसें: झूंनीपीदपूरसें
साम: झूगानमांघाली
नेतापसें: तावेदीसेमला

[illegible]

हकुसा भूमीलर्नेः तरेंसु
रेनीनरखीद्धारः श्रादांम
सघूदूपपांकुरीःकि मदि
तरसींपारः ॥८॥ सतग
रपंनाधंनानांदि तरेः श्री
निजारपंनांगनांनहीश्रीः
पदकुरांनिर्नजांखीश्रीः
श्रानसंधपातीरेसीश्रीः
श्रीपूर्नदेनेपमारीधूल
नींः हकुसाभूमीलर्नेः
तरेस्हरेनीनरद्वारः श्री

धरं म स्कु धू धप क्षां कु शी ः कि
मर्हि तर सीर पार ः॥७॥ नृ
ध्यानगनार्‌आ हराणपां ः
र्तनीकुलनग मांनी सांनी
सारी ः सपार र्पिसंसार
पणासर्सि ः पणार्सिनरनि
नारी ः श्री पूर्नाचर्नि पभा
रीपालर्नो ः हकुसा मूर्णी
लर्नो ः नर स्करेर्नोनरधा
र ः श्रा धरं म स्क धू ध प क्षां
कुशी ः कि मर्हि तर सीर्र पार ः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

o o o o o o o o o o o o o

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥२॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥३॥

१२०

भेई प्रांनी हीसे दीलखा:
पापीप र दे थ ईनाने:
पाल डी पे भार्गा ने आप
से: साहेप रगर थांके:
[illegible] पर गर सपांमी
रान आप से: परग
रनापन पावे: सेर
[illegible] डी पांपास से:
परगर साहेराना आ
पे: [illegible] पीनना आ
नाथ प्रु मं नो: राणेडे

घर्किाघरिर्से : आपि मवी
नेमसाफरआपिविहल
एासे : ॥६॥ गोरघमांस
साहाक्रिमपीालीआः सां
लर्पाामनीपरनाघ :
कुल मीाकु हिा ह लसाप
रु : हपे माहा हंनपेमा
रिआघ : ॥७॥
श्री सतगुर पर्सं पामाया :
आलतीरि आमरतमांडी :
आंनीलं ले आपामोारार :

प्रांभीरे प्रारणीकीला
ला: तेनाएंपेनाम्होरीम्ह
वतार:॥ गुराजीपंदन
पासीरे वीजघे: तेमां
सीगांघप्पद्रिरेम्हपार:
तेनेपासेरेपीलावांस
गढ:ने मांसीगांधन हीरे
वगार:॥२॥ तेपारे तें
प्रलीप्रघा: म्हांनेपेछ मां
नीनेपापीए: गीरग
त मांम्हापी ढिलारहीने:

पर्षिकी धारि३रसपरा
जीए ः॥३॥ गजीनांब
सतूर्पिदि पारीक्रां ः नेषु
रसक्रास णपैरी नीषा
जीए ः नेषी दूप लीकुम
लगारहि ः जापागजी
नंधी नेरा जीए ः॥४॥
सरणीकुशलाने सतपा
ही ः तेनू सतनारि हिरेक्रा
न ः पणनीपाने परनू
पक्षारां ः तारि हि लीपि

श्रीं साहाश्रान: ।।पा।।स
कुरे।। ते वि र्थासकुा।। र माजी:
अंने कुा।डी ऐकी मद पाऐ:
रेहि।रे।हि।। नेसाकि ममी
जाहेर्व ऐ: मापाऐ दीधां
नेवाऐ: ।।कु।।रतीऐ तेर
तीऐरखां नाकुापा।: अने
जारेथ आंसकुार: राजा
एपापी सरपरमापी:
तारे कुरनापालां रे कुरतार:
।।कुा।। भाजी।। नेराजा मेहि

र मार्गी॰ अने पुरा धांस
मर एसारी अां॰ मी हिर
मार्गी ने हंअां नो तिओ॰ रा
नातं मील तां ने अं मी मा
री अा॰ ॥८॥ ए रखु
साहिप मार्गी ए॰ अने ह
रस पानी पर पास॰ अं
मारा अप नु पा फलल
कुरी॰ लापा अां लां अां म
रा पर पास॰ ॥८॥ अां
हर छ मां मसाहा ए मपो

पीआ: अंनेकुंत्ति पापा
नारिपमार: पार मीस
धीनाकिा ल घे: ते मांजू
पीनलासींगां मार: २०॥

श्री सतगोरपरंमापाया:
आतंनहरडी मी रांसा
हांपंनीआं: तं मजघे
पनंनकुरी: पीरिसांचरि
सारिपना: ॥२॥ मंहे
झापिरंनपाह लीआंला:

तीमघलीषोष्ठिरनलाल:
प्रिरीसांर्घरीसाहिपला:२।
प्यांईश्रीष्पेरनमीलडीक्रा
ल:नलक्रापिहपुंमे:मे
रीसांर्घरीसाहिपला:॥३॥
तप्यांडापांनीगरमक्र
िला:ह्रसप्पेईक्रातंन
नलाक्रा:मेरीसांर्घरीसा
हिपला:॥४॥तपाक्रघे
मंगाक्रांनिक्रपेड:हिसप्पं
ईक्राक्रातंनप्पंनाक्रा:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

त्रीला मन प्र मेरे लाई लीला:
लाघी डी मे दीन द माः मेरे
साई रे साहि प्प ला: ॥९९॥
तप्प नं भाव पडी मेरे लाई
लेला: हि स प्पं दे हू फाती
[illegible]
साहि प्प ला: ॥१२॥ तप्प
[illegible]
ई लेला: हि स प्पं दे हू मन
[illegible] मेरे साई रे
साहि प्प ला: ॥१३॥ [illegible]

मन ले मे हैला घ जि ला :
आघे डाकु आर हेकु नार :
मेरे सांई रे साहिब ला : १४ ॥
तआ घारे आं दिवा घ जाआ
रे ला : तेम कु पार मही आ
गा मला : मेरे सांई रे सा
हिब ला :॥ रूपा घारे
आं दकु डी आं : मां हि घा
लीस मां ना आ डा : मेरे सां
ई रे साहिब ला :॥ १५ ॥
डी आं दी आ घ रे सकु ला :

माँहि है। लीआसरी पीआं

ए॰ मेरे साचे रे साहि पलो॰

ा॥ मारे पांडे आरला

छलिल॰ हि सप छेहु पनले

पापाँआ॰ मेरे सोंचे रे सा

हिपलो॰॥ १॥ पांप

मीमन पमेरे लाछेलिलो॰

वाछाडे कुपरके नारे॰

मेरे साचे रे साहि पलो॰

नहीं आतप पीछा फरी

मेरे लाछेलिलो॰ हि सपं

ईश्कु फर सतामिलाक्र :
मेरे सांई रे साहिबला : २० ॥
चांद्र मलाक्र फुन्माक्रे मे
रेलाई लिला : ईसमे ईश्कु
नंमानपीयाक्रे : मेरे
सांई रे साहिबला : ॥ २१ ॥
तम्पंय मलाक्र मेरे लाई
लिला : ईसमे ईश्कु ईरु ई
पीयाक्रा : मेरे सांई रे सा
हिबला : ॥ २२ ॥ चांद्रपा
संचांद्रलाई लिला : मही

आतखूमन लिपीमान्नीः

मेरेसांइरेसाहिबजाः२३॥

घटीमनपा मेरेसांइबिलाः

जाछीडिकुजारनीमांहिःमे

रेसांइरेंसाहिबजाः२४॥

नंमातमजीजी मेरेसांइ

बिलाः तजदेखीरिसद्

कुजाः मेरेसांइरेसाहिब

जाःारपादिाआदरदप

डा मेरेसांइबिलाःतज

जीजीरिसीजाकुजाःमे

ईसांधीईसाहिबनजा : ॥२६॥
पीर्धीझीलपडीपीईलाध
लेना : मीगीलाघीडीनंम
पुनीनालु : मीईसांधीसा
हिबना : ॥२७॥ पीधीमी
गीमधान्हान्हपुनीलि
झीना : पीपरलातीपीघी
इझान्हा : मीईसांधीईसा
हिबना : ॥२८॥ तमन्हां
पुपीधून नीरझाना :
हीसझनाईहीपवघांटान्हा :

मिरे साधे रे साहिब जो ः ॥
१ ॥ छूप दर दपडो मीरे
साधलिजो ः दि सब दिछु
पातीआ दीजो ओ ः मीरे सा
धरे साहिब जो ः ॥ ३० ॥ त
पपी छापर रा मीरे साधले
जो ः आपप रलोदि नू छि प
र ः मीरे साधे रे साहिब जो ः
॥ ३२ ॥ छूप दर दपडो मीरे
साधलिजो ः दि सब दिछु ।
पातीपडो ओ ः मीरे साधे

रिसाहिब्नजाः ॥३२॥ स

हीब्रशीर्वालांपीर सदर

दीनाः श्री रसीदभु माहुन्मा

रिम्नवार्थः मैं रस्वार्थ रिसा

हिब्नजाः ॥३३॥

श्रीसतगोरश्वरमांपायाः

जार्थरिम्नांई निसपंनात निभ्र

एानरपान्नां ६ मैां ब्र प्राहिभ्र

फनेपीतपस्पतान्नां तेमैन

नोन्नार्थीजपडाः स्म्न्नामां

भ्रार्थः जार्थरिजागांतांन्नातं

[illegible]

पडासुश्रीमांव्रीछे: ॥२॥

भाईरे व्रुस ऊपी पं नाम्राग

पव्रीत्रीन सीधा: बीरबल

हरीअं हे व्रा सी भात्रा पवे

भापांळी: तंभेनागीलाछे

ळी पडासुश्रीमांव्रीछे: भा

ईरे नागताश्रीतंभप्रपाल

धर्म: भांहीनोपापेपूल

नहीळ: तंभेनागीलाछे

पडासुश्रीमांव्रीछे: ॥३॥

भाईरे व्रुस ऊपी पं नाम्राग

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नताश्रीतंमेफलालाघश्री:
श्रींहीलीलावेफलनहीला:
तंमेनगीलाघलीपडा
सुश्रीमांक्षघ:।।५।।लाघ
देलागीलागीनेतंमेनदु
रङ्कमाश्री:तासहीश्रींम
शपरनाश्रीला:तंमेना
गोलाघलीपडासुश्रीमां
क्षघ:लाघदेलागताश्री
तंमेफललालघश्री:श्रींही
लीपावेफलनहीला:तं

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दुर्गनिप सां पुरी थुज मांहि आ
वे।ः तांहां ब्रह्मलोक सपार
पिलागी।ल ः तं मे ना गेला
छेला पडा। स्कुमा मां कढे।ः
लाछ रेलागता म्रातं म फछ
लछ म्रे ः म्रांही जी।बा।पे फ
मन ही ला ः तं मे ना।गे।ला
छेला पडा। स्कुमा मां कढे।ः
।।ट।।ला।छ रे म्रा।नं सं सा
रहा।रपा।र फा।क्रा।सी।दी।ः ते
मांहि स ह कि।छ पडा। मे म्रा।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

नागीनाः ईला प डा स्कुक्रा
मांझाई ः ॥ ८२ ॥
श्रीसतगुरु स्प रं मा धाया ः
अ र लं न पे लि रि दं नां मु ता
ध डा ली ः बी नि इ न ल्प रं म
द तां री धा क्री ला धा क्री ला ः
ती लि नि द न धि ल्प प्रा इ ल छी ः
धी पि दं नां धा क्रि कि प ल प र
फा स लं प र फु सि ला ः अ
र लं न जू ला रि ज ल तं मे
झां ल्रि लं मो ः सां दृ रे पु त

[illegible]

realpatidar.com

मिक्षांम्रिल मीं॰ सींदु रीक्षि
घ्रत रेक्षु हितला हितला॰ म्रे
तक्षा कि क्षुं घिक्षुं नीन ह्ती॰ पु
रां धुलीकृ म्री ता म्र दक्षा रग
म्रं द क्षा रजा॰ पारा म्रं
रनं न पेलि ने प्रा सेरे घिट्टि
नीप कहु ब्वी जे मा से गी
र क्षु हे स रू नी म्रा क्षु रजी॰
म्रा क्षा र जा॰ त्री नें न प्रा
सेमर पाम्रा दे हपा॰ मो
दिमा से लू नां त एी पस

१३५

तारणा पसु वारणा ः अंत
नंन लोलारंजू जत में जो
ओलं मीं ः सो दरी पूतरस
हेतणा हेतणा ः अंत तजो
रे छुडी वचुं तो न ही ः परापी
लु ओतो अधूखारणा ः अ
धखारणा ः ।।अ।। अरणंत
पांथ मे आसे रे तणा पव ः
छटे आसे नथ पांजु छूस
लाउ सणा ः सातं म आसे
रे सरपनी पर्ल ः जां ओपट

श्राधे मांप्रासन : पेस्वलापे
सला : अ्रवंन भ्र पारेन्र
पतं मेडां अ्रवं मा : सांद्ध
रापूतर स्केतन लो केतला :
अ्रतप्रापरि रि डाभे डु लोन
ही : परां पीनु अ्रातां स्प्रंद्ध
डारला : स्रंप्य डारला :
॥४॥ अ्रर लंन अ्रा२ मेमा
सिगं नांन अ्रपांद्द हपां : तां
हांस मरांतेसा रं गपरां
एला : परां एला : हपेय

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

231 (?)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

नी फ्कि भाशिपीरजा पीर
जा १ तारिश्रि धां हूफ्कीना
स्तांपी श्री भाहि वीा॰ सजा
फ्कि सगापदूपा श्रीजा पी
श्रीजा ॰ श्र र वे नसूपादेन
वतंभि फ्कां श्री नं भीा ॰ सा
धरीा पतर स्कुदेवजा दितज
श्रंतफ्काषि रफ्रिषि फ्कि नीान
हीः पशांपीलु श्रीांतीांश्रंद
फ्कारजाान्नं धडारजा ॰ ॥१८
श्ररजंन॰ नाशीफ्कतिरेनीापि

[illegible]

ऋ मांहि रीः जी पजनी पर
तणाभाक्रीजीभाक्रीजीः
तेमाहेनेमाहेपराणीक
रीरक्रीः क्रीमपेपांणण
क्रीनुसरीरजा॥सरीर
जाः क्रुरवंनजुपतारीबुल
तंमेफुक्रींजेमाः साधुते
भूतरसुहितजाहितजाः क्रे
तक्रापिरक्रोघकेनीनहीः
परांणीजुक्रीतांक्रीधक्रि
रजाक्रीदक्रेनेजीः॥क्रु

आंरनंनक्ष मक्र रतांप
हांपी मालीगा आं: नधि
मेपूरांघे नंगालीनापा
सनंपासना: तांरिभ्र
गानीफुहि आार मांहिरो:
पांनीफुरेसाधानांप
मारना पमारना: मर
नंनभूसारेनूलतंमेफुं
आनंपीा: साधरोपूतर
आहेतना हितना: आंतफु
मेरे फुाघेडेनानहि: परां

पीर कबीरा तो अंदर उजारना
अंदर उजारना ः॥ २४ ॥ अ
रस नांप रूं पीरनी छत प
तरसानं जीरः आ झ सते
हि पन नसानं ना सं नना
सतगुर पर अंभकवीरां
पीनती ः भाराम भंनेप
ईडा ४ मांपा सवा पास
ना ः॥ २५ ॥
श्री सतगोर पर भा पा या
नरि श्री दिः न सर उजारू

१४०

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

https://archive.org/details/bk160/page/n311/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 10 (160)

रीः॥ ४ ॥ बरी आहिः गी
रप यंनेमिबार हितरी आः
अंमीयंतजा आंसीति गाजाः
॥५॥ बरी आहिः आवां कुंहा
टेमिरा सीधा नामेनीआः
मिता सांहि का क्रिधा रमिकुं
आं:॥६॥ बरी आहिः रीह
सार तीआं मिरां कुं हामा
साः सीता तीलिय डीनेष
सा आं:॥७॥ बरी आहिः ल
लिला लर्यला हिहगीारकुं॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पी शां ऋापसी पा पांऋाः
ा[illegible]ाजारे ऋांहिः सात पु
रे डीनाहरी [illegible] हपु रवी ऋाः
[illegible] डीपुरासी [illegible] ड मांऋाप
पीपाऋाः ॥ [illegible] ारेऋा
हिः नप पु रेडी [illegible]
[illegible] पासी [illegible] हिमा
पीहा [illegible] पांऋाः ॥ [illegible]
जारे ऋांहिः पारपु रेडीना
[illegible] रह हरही नों ः [illegible]
हरी ऋा ना पार [illegible] तारां ऋाः

॥ ९४ ॥ जोई ग्राहि॰ फपात
रपि फीा भां भ्र नां तक्रु रीडी :
धपृति भी रां भ हं भ ध साहा
तार डिं भ्र पां भ्र :॥ २५ ॥
जारे ग्राहि॰ ग्रीपां तर प
भंब पीर सँ भ स पीा लां॰
भु भं न सी द्दितं भारां ग्रान: २७

नीस तगर भ रं भापाया:
जारे लाधि भु भं न हांजा ॰
तें भ्रं ग्रापाति पिं स्रा भ्रं भीर

सपीआं: आपणनेलीएरे
सरजांतेनिद्राईवे: ।।२।।
जारेलाईभु मंनहांजा:
नसपीछ सआंनेसंही
जीरपाआं: आपणेसत
जीरेसतपंथदेखाडीआ:
।।२।। जारेलाईभुमंनहांजा:
इसपंतीसर पंदीजीरजा
सुपिआरी: अंनेसतरेजां
एपिजीरलीलीआ: ।।३।।
जारेलाईभु मंनहांजा: प

दहसुदीदिकेनिपान्द्रिकु ने-म्रा
के:पीरार्सीलापमुमंवकु
लापर्से:॥४॥जारेलार्धेमु
मंनमांजा:गीरपान्द्रीकेले
म्रापनेहसाकुसापी:म्रांने
सीलापजसठसुधारसे:
पा॥जारेलार्धेमुमंनमांजा:
पीनरीलांव्यारतपरगार
हम्रा:धपेमनलेमनले
दपाम्रापसे:॥६॥जारे
लार्धेमुमंनमांजा:पाकंम्र

पीर्छव पार्तिखु रासां
नीः आपंणेसं पांमीरा
कापुरं अस सपानीआं भा॥
कार्सपा धर्म्म मं नक्कांकाप्रे
नीर्कि आगेअ से सा धर्मप्रआ
र्थेः र्तर्तीहीआ धर्मसातिप्प
नीर्फराप सेः॥ कालरे
लाधर्म मं नहीं का: पांप
पाप्प र्सेतर णंतुरपा कर्सेः
तारे सीगी नेनाद प्रराप
सेः॥ ॥ कारे लाधर्म मंनकांक:

पांमनहीं मुळे सभांनांजे
त्रयासें: तांहांईथतजायी
ओप ठसे: ॥१०॥ नारेला
ईमुमंनहांनो: सीनईत्रे
रानीवसईनांहांसें: तारि
उरडीपंनाला पत्रलसें:
॥११॥ नारेलाई मुमंनहांना:
मारीहांएपनर पंसवरी
नें: आप एासपांमीराना
घतरठपाप सें: ॥१२॥
नारेलाई मुमंनहांना: त्रे

पांगंनांनअंमारसत्न पे
पीरकुबीरदीनां॰पीरा
शंलकुरांमतदनआवसे॰
॥७३॥राग पर्भाती॰ भाई
शंलकुरांमतहाडआंप
सें॰अंनंनआलकुपदस
तिआपतार॰तारीसहिप
लिआंमागसें॰तंमिनस
रलांपीनरदाक॰॥७४॥
पापलगीलशनाकुपील
गीहआं॰अंनपांपिपरसा

खोईमांन ःसतगुरनींदय
रसीःलाईयेरे सीसाहिब
नीनीबांम ःगवूपातीनेस
नेमहेकशाहजुरहीरसेःआं
जीकेपातादेप नेदीआर ः
गांनांनसंभारसभीलां
सीरसभ्ली रहीनःआलक
नेसेपोजोर्इहुस मीआपतार ः
२८

श्रीसतगुरप्यारं भापापा ः
नेजो गाजवरीपुरीसाहेराना

[illegible]

झीनैः अंनेपसतवीआनि
सारणाः हलतूसंभरणांनि
फवतूसडपघर्जोः तांफल
तूरपादूसंभारणाः नगास
चंआलमरिआपालहूआंः
तंभैनूलीननाआंभारापी
रणाः नगीाजगनाअंनस
पांभीः तीआलपअंवृद
आपणाः नगासंचलिभां
रिआपालहूआंः ॥ राहिणा ॥
सतधरंभसुआराधफीवैः

अंनि कुरी आसी सुरा नि
र्हि पारजा ः नी सतगु
रनि पृथी आप तारनी पा
अ ः तां पां सीनि मुग तंडि
हारजा ः व चौनवा सर्वे
जमारि अपाजि दुमां ः त
मिजू ली नवा आमारा पा
रजा ः वगुजगना असपां
सी ः आजापा अ कुह आपा
जा ः वगा सर्वे जमारि अ
पाजि दुमां ः ॥ ३ ॥ हिंजा ॥

जांतांनधांनपरमांणाकुरी
नें: पांमिरतंनसंमारीक्रि:
पांमपापीदुरकुरीनें:खा
जानांजरमारीम्रि: लगास
धेक्र लमांरिक्र पावे दूक्रां:
तेंमिनूटी ननाक्री मावापी
रवा: लर्गालेगनाक्रीनस
पांमी: क्रलभक्रीकुदक्रा
मना: लगासधेक्रलमांरि
क्रपांवे दूक्रां: ॥४॥ दीवा ॥
मतेही एांनिदवमदतेंमीएद:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

२४८

आपणें साहेब वली धीं आप
तारणा ः सतगीर नीरंती
अंमर धार्छ आं ः अर्न मुख
मुंगा तह धारणा ः नगास
छ आप मां रे आपान दू आं ः
तं मिलु वी नना आ मारावी
रणा ः नगीआ गना आ नस
हिप ः आपल मग अ पुहू आपणा ः
नगास छ आपल मां रे आपान
दू आं ः ॥ ५ ॥ कीना ॥ आ ली ने
रसतनर आ लखसंपी ः

क्रं निसपां भीतिस रंनं नहा
रणाः गफ़्तत फुपीरधी
नः पीर सदर दीनां क्रीप
डासाहिबनीपरपारणः
ण गासघ भ्रत्व मांरिभ्रपा
नहभ्रांः तं भिलपीनका
भ्री भ्र मंनपीरणः णशाि
गनाभ्रि णसाहिब ः भ्रपाभ
भ्रिदु भ्रापाणः णगासघभ्र
ल मांरिभ्रपान हभ्रांः पणा
हिणापीर सदर दीन सत

गुर पर सं मा॰ लार्ख त्रे म त्र
लख सु धा त्रो ना ः त र नें प
रसादि पीर सें म स भिलां ः
सत पंथ सर्व ता फप पात्र
ना ः व गा सघ त्र ल मां रे त्र
पाल हु त्रां ः तें पिलु ली नल
श्री कु मन पीर ना ः न गोल
नात्रि व सा हि भ ः त्र लभ
त्रि फु ह त्रा प ना ः व गा सघ
त्र ल मां रे त्र पाल हु त्रां ः ८ ॥

हिना।। संसार सारी गार
न्हुजीन नासी ः अनेगतगं
गा मां तीरथ नाश्रीला ः
रहेमां मेजानेपंडप
खापी ः तं मेहर्षपरे [illegible]
पापीश्रीला ः परीतडीरे
परमश्रातं मसुपुले ः तं
मे श्राधीकुर एीकुं माश्री
ला ः श्रामपारहेनरातना ः
श्रापण्णसाहिबने संसारी
श्री ः परीतडीरे परमश्रातं

सरसूपीरो: ॥७॥ हेला॥ हेद
सुदिधापरिनपधेरपूलै: अंबि
पीआपुरपाद्याअैनो: लेस
लापभूतीनलापनैपडापे:
वैतानसरेहानपूलाअैरे:
परीतडीरेपरपआीतंसस्त
पीरो: तंभेआधीपुरणीपुं
माअौनो: अश्रपीवदंन
रातनारे: आपणासाहेबने
सेरीअ: परीतडीरेपरपआ
तं. सस्तपीरो: ॥८॥ हेला॥

नींगीतींगीरखनाथनंद्य
आं॰ आंनीपशंमणापसन
पनंद्याआंना॰ सीपडापात्र
सीनाथकृद्याकृपां॰ आतुडी
त्रलडानाआंना॰ परीतडा
रपरखआतंमरुजीनीं॰
तंमआवीकुरणीकुंमाआी
ना॰ असतपारदनरानी
रि॰ आपणासाहिबनेसला
ती आं॰ परीतडीत्रेपरखआ
तंमरुजीनीं॰ ॥ आहिना ॥

२५१

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

म स्ह श्रीविं॥ १

श्री सतगुर ब्रह्म भाषा ना:

हूलाार्थ तर्थेत यं पपम

नकुरी र्मेता: श्रनेव ब्रह्म

हाऋिधार यांसा सना: ला

पहृन्नाापपणाजु गतीनहर्व:

नेहुनीतिमालीाह्रिधासरे:

ह्नापती• ह्रावधीगंनांननी

पयारसनवली श्रीा: श्रंह

ंनमहरान्नां रेह्ना पती: ॥३

रर्ष महुजगंमा श्रा रेह्ना पती:

कुंपेधीगंनांननीप यार
सेनली श्री ॥ ५॥ हिंज ॥
आरे संसार हार पार पाकु
रीनां पीा ॥ अंनंस पको
थेपणजे आआंना ॥ तमेप
पांजी मर्को ते पणजे रेला
थ ॥ नहीं तो फाकुर फेरालग
मांभाआरे बुपती ॥ बुाप
धीगंनांन नीप यार सेन
ली श्री ॥ अंदिनंन मसरापां
रे पकोपती ॥ मुरम मुजगां

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

हरान्य्रांईश्रीपती॰ गुरजि
मुखगांमान्य्रांईश्रीपती॰
श्रीपंखदीगांनांनमीपथारसे
नखीन्य्रा॰ ॥४॥
श्रीसतगुरब्रंमापामा॰
ईदिमांदियांतरीपरुगांन
फपा॰जंमरलैपुरैलीधेप
सजा॰॥५॥ईमातान्रीदेप
श्रुत्रुरजनमीत्रा॰सांसाध
रीत्रांधितनांनांमजा॰॥२॥
श्रांनजाश्रुर्वनंर्षीलापरु॰

कुरसंनला दशआंर्घनाम
ल॰॥३॥ तांपाछडी तलप
रसांकुपी॰ज्ञांनलानं द्दधडी
आंनपरार्पीला॰॥४॥ द्विद्द
दपीआंरिकुयांपाडें॰नीम
सेर्पानंघमासल॰॥५॥
पापलरीसगमीतीआं॰
ज्ञांनलानपद्यापामंपा
लीला॰॥६॥रंमतांनिरंम
तांपाजीरपथडा॰दडाप
डीलंमनांनालपमांआंला॰

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

तांधा तीत्रां पम्मा पां तां : न
भी मारी लल गं एीधी पात्र
ना : ।। १२ ।। कि नभी मारी मा
तांत्री धलपो : न भी मारि
पंसमली पतात्री हीदी धे
गापाना : ।। १३ ।। नभी ह
तोपा १४ धी त्री : नभा
मारि पसमली फीर नार
ना : ।। १४ ।। नाग एी त्रीना
गनगापी त्री : फ्री धर्फि से
पसपा सेत्रा लीना : १५ ।।

सीसत्र फिरआनो नाशानाती
नधाअअसपाईजः
आः ठिपरवांसवासरना
वारना ः ॥ ७६ ॥ नागना
थीने मपीरांमांथीडवो
आपीआः ठिपरवुंमपा
सरनीवारना ः ॥ ७७ ॥
मपीरांमांथीडवांलिलपैः
ठिपरवांनपापाआसपा
रना ः ॥ ७८ ॥ वीवलीआआं
दरथमां मसाहाः मपीरां
मांथंगालपरताश्रीना ः

श्रीसतगुरसरंभापाया:
नपुफंपुी भहं भदन्रापीन्रा:
नपनंडिपुीध्लांछिनांडाका:
॥१॥ ताल हंहां भांरिपागीन्रां:
पनिपानितलछ नै नीसांडाका:
॥२॥ परिपान करायं दहर
पीन्रा: मुछ डलि पत सिन
रना:॥३॥ नांनि पि पि दर
भी परिपान नेम्मीन भपां
न्रपारना:॥४॥ तडां तडा

धरमीनि परीलानना ः तेडा
तेडीतारांहिजरीयेहना ः
।।प।। अडीआपांड्पर्नडे
मझारस्त ः नांडीआपांना
रीनीमीघना ः ।।४।। पडा
आर्सिदपर्ननछपरी ः प
डीपर्डआरनपांनेलीमना ः
।।प।। मातावृता नांनीरप
पर्ड ः रपतपरपेनतेआछा
सना ः ।।५।। आंमपीरानान
नेखरनिपतधीह ः मातातंप

નેકું જાગી છે પારખ ઃ ॥૭॥

નારાં પુર્દીપ નીસાખી આ ઃ મેં

નાં પંતાં લાગી છે પ્હુંચે પાર

ખ ઃ ॥૮॥ દીપ દઈ ત મારી આ ઃ

રગાતરે ષ્ટી ધ ખાં સંસનાંનખ ઃ

॥૯॥ પૂરતારે ન ગનાખપ

ડા ઃ ખ દ્રી દ્રતાનગનાંની

પારખ ઃ ॥૧૦॥ દ્રતાનગના

ખપડાં ઃ ખ દ્રી દી આપરન

ગનાંની પારખ ઃ ॥૧૧॥ દી

આપરન ગનાખપડાં ઃ ખ

श्री घीफूलनगनांनीपाटकः
।।कृशा।।याशनगनाजपडाः
नषीपांषांस्मांदिपनांदिहाटकः
।।कृषा।।षाशिनशमांफूलन
गमीहुः नक्षिआपांमहंम
दसाहदांमीशपीजः ।।कृष।।
नांक्षीआपजांमषीनमसा
फूरः नांक्षीआपजपांनमली
नमातजः ।।कृपानांक्षीआप
जांघीत्रनीपाछरस्रंः नां
क्षीआपजांघरडामीजारिजः

२५८

॥२६॥ श्री [illegible] श्री [illegible] खांर [illegible]

रलाथलि: नेपांमां [illegible] गतदिश

रना: ॥२७॥ मेरपुरी मीरां

आपना: [illegible] दारा [illegible] न ग

पखडांपारना: ॥२७॥ पु

सलंगसध ना [illegible] पडा: ता

[illegible] नी मह मद सा [illegible] नि हा

पना: ॥२८॥ [illegible] र [illegible] लपा

नाहिपता: आपी मन सेसा

हिंमने दर आरना: ॥२९॥

[illegible] ली आ [illegible] दरनेथमां मस:

रखैं सरनेअं मसापरनापा
सला: ॥१४॥

श्रीसतगुरपरंमापाभा:
प्यारमीसधीलारेआपसे:
धरंमनहीरेजगार: ॥१॥
धरंमऊरताक्रोधआंपसे:
ऐपीआपीसंसार: ॥२॥
सतीहिनांसतनारेकूरसे:
सतनहीरेजगार: ॥३॥ आं
गंभांहिन्नतभानांपापसे: ऐ
पीआपीऊपीआप: ॥४॥

ठाडीथी म्हजम मंनकुरसे:
प्रांहिं तृ ष्मांनां प्पापान घे
पाप: ।।५।। त्रीसं ष्प त्रीसे
पापीनां एानां: तें पएाघे मा
हा घे यंडाज: ।।६।। घ त्रीसे
छे तू पीडी थाई से: ते नांक
र्मीनर धार: ।।७।। पस
तापी से प्पार मी सघी प्तरी
था से: नागसं अ्रनेपाज:
।।८।। पथा सं बापे नेपप
नानां से: कुर से ऐडारे प्तार:

॥ ६॥ सांई प्यारा ईमपा

पड शें पैसीलासे पीत्रा

न ॥ नृ॰॥ पयासी ए पी

रसं मसला गसे सतेरे

पीतरे संधी फीर सें॰ ए पी

रे भासे संसार॰॥ नृ॰॥

पयासी ए पीरसं मसला

गसें॰ रे खसर पात्रीनृसी

न्नार॰॥ नृ॰॥ मीरांझरएप

यांझ ए॰भाई भड़ि गसें॰

त्रली प्रि दीपाए त्रसपार॰

१५०

।२३।। नपांण ए सर्वकुंडसें

दिन्यावीपीतीक्र्यागांमक्र

लाकुलांपण ।। २४ ।। गांनां

नव्यीलनांरैगांरर्धमांमसाहा:

रु मंनसहीपरमांपण: : ।। २५ ।।

श्रीसतगुरवरंमापांभा:

क्र्यागांसीनेरानेगमंनपु

धि: लक्रीगुरूकिसरंनास

पांमीमेघि: ।। १ ।। सपां

नांसनमर्डतांद्रिडकीहा:

थे ना पुंश्राश्रीद्रनारेना
पः ॥ २ ॥ नूपालीक्रोधे रह
रैनांपुःतारेदर्घतीनेस
रपडसैलंगांपुः ॥ ३ ॥ न
रै रणीसरैनेधरणेदपप
ःतारेदर्घतनेसरम्मां
नीधारः ॥ ४ ॥ नश्रानाप
देपी जे ध पुती रै महंमदस
ायडसें:तारेदर्घतपुा
तिगानेकीपाकीकीपाी मा
सें: ॥ पाातारेनारव

નઅમતસે બાજ રહે, દોઆએ ગંજુલ અરશકો નપડહે, યા મોહમ્મદ જો કોઇ ચાહે કે ચુગલખોરોંસે અઓર તમામ આફતોંસે અઓર બદખ્વાહોં દુશમનોસે બચો, અઓર હાસીદોંસે મામુન રહે ઓર હમારી રોઝી કુશાદા હોવે, અઓર કરઝસે આઝાદ હું, તો ઇસ દોઆકો પડહે, અલ્લાહો તઆલા ઉન સબસે ઉસકો નજાત બખશેગા, અઓર ઇસ દોઆએ બુઝરગવાર કો લીખકર અપને ગલેમેં હમાયેલ કરે તો સબ આફાતસે અમન પાવેગા અઓર તમામ મતાલીબ દીની વ દુનયવી ઇસકે પડહનેસે હાસીલ હોવે. અઓર ઇસ દોઆકે પડહને વાલેકો કયામતકે રોજ દીદાર અલ્લાહો તઆલા અપના રોજી કરેગા ઓર અલાહો તઅલા ઇસ બંદેકો તમામ નેઆમતોંસે સરફરાજ અઓર મુમતાઝ કરેગા અઓર ઉસકે દુશમનોકો ખવાર અઓર મકહુર કરેગા અઓર જો કોઈ ઉસપર નજર બદસે દેખેગા તો પરેશાની અઓર ખીજાલત કે સીવા કુછ ન પાવેગા યા મહમ્મદ જો કોઈ યેહ દોઆ પડહેગા તોભી રાહેનેકસે ખતા ન હોવેગા

લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો ઇબરાહીમો ખલીલુલ્લાહે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો ઈસમાઇલો ઝબીહુલ્લાહે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો મુસા કાલીમુલ્લાહે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો દાઉદા ખલીફતુલ્લાહે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો ઈસા રૂહાહુલ્લાહે
લાઈ લાહા ઈ લલ્લાહો મોમ્મહદુર રસુલુલ્લાહે વસલલ્લાહોઅલા

ખેરે ખલ કેહી વ નુરે અરશેહી અફઝલીલ અંબીયાએ વલ મુરસલીના હબીબેના વ સઇયેદીના સન દેના વ શફીયેના વ મવલા ના માહમ્મદીવ આલા આલેહી વ અસહાબેહી અજમઇન બેરહમતેકા યા અરહમર રાહેમીન.

યેહ અસનાદ હએ

રીવાયત હએ કે એક રોઝ હજરત રસુલે અકરમ સલ-

2010 Before -Satpanth Manuscript 10 (160)

અઓર મહેરબાન હોકર માઆફ કરદેગા યા મોહમ્મદ જો
કોઇ શખ્સ ઈસ દોઆકો હરરોજ પડહેગા ઉસપર નઝર
મહેર કી અલાહો તઆલા હરરોઝ કરેગા હર બનદએ મો-
મીનકો ચાહીએ' કે એક બાર હરરોઝ પડહે, અગર હરરોઝ ન
હો સકે તો દુસરે તીસરે રોઝ પડહે, અગર ન હો સકે તો
હર હફતેમે એકબાર, અગર અએસાભી ન હો સકે તો હર
માહમે એક બાર પડહે, અવદ અએશાભી ન હો સકે તો
હર સાલમે એક બાર પડહે, અગર બરશમે ન હો સકે તો ત-
મામ ઉમરમે' એકબાર પડહે.

અગર આપ પડહના નહી જાનતા હોતો કીસી દુસરે-
સે પડહાકર સુનલે તોભી સવાબ પાવેગા, ગોયાકે ઉસીને
પડહા, અઓર સવાબ ખતમ કુરઆન શરીફકે બરાબર પાવેગા
અઓર દશ હજાર શહીદોંકા જો અલ્લાહ કી રાહમે જાન-
બાજી કરકે કુફારોંસે લડકર શહીદ હુવે હએ, ઉન જએસા
અજર મીલેગા, ઓર દશ હઝાર કુવે ખુદવાનેકા અઓર
દશ હઝાર ભુખોંકો ખાના ખીલાનેકા, અઓર દશ હઝાર

જીન ભુત પલીદસે અઓર તમામ બલાઉસે અલાહો
તઆલા અમનમે' રખેગા. યા મુહમ્મદ જો કોઇ ઇસ
દોઆકો લીખકર બરસાતકે પાનીસે જીસે જાદુ કીયા ગયા
હોવે તો ઉસકે પીલાનેસે વોહ સહર બાતીલ અઓર મ-
રદુદ હોજાવેગા, યા મુહમ્મદ જો કોઇ ઇસ દોઆએ ગંજુલ
અરશકો પડહેલગા. યા લીખકર બરસાતકે પાનીસે પીલા
દેવે, જીસ શખસકો જાદુ કીસીને કીયા હોવે ફીલફોર અછા
હોવે, બલકે અસર જીન અઓર ભુત વગેરેકા બાતીલ હો-
જાવેગા, યા મોહમ્મદ કીસીકો અગર આઝાર એસા બેઢબ
હોજાવે, જો ઇલાજોસે અચ્છા નહી હો સકતા હએ, અ-
ઓર તબીબ ઉસકે ઈલાજસે આજીઝ હોવે, તબ હરરોજ
એક બાર યેહ દોઆએ મુકરરમ લીખકર સાથ મુશક અ-
ઓર જઅફરાન કે પીલાવે ઉસકો તો અલ્લાહો તઆલા ઉ-
સ બમારકો શફા દેવે અઓર હર મરઝ દફઆ હોજાવે,
ઓર મરીઝ તનદુરસ્ત હોકર આફીયત પાવે. યા મોહ'
અગર કીસીકો ફરજંદ નહોતા હોવે તો ઈસ દોઆ બડે

3

લા ઇ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ રબીલ અરશીલ અ
લા ઈ લાહા ઇ લલ્લાહો સુબ્હાનલ રબ્બીયલ આલા
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ બુરહાનુસ સુલતા
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ સમાઉલ બસાંરે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ વાહેદુલ કહારે
લા ઈ લાહા ઇ લલ્લાહો સુબ્હાનલ અલીમુલ હકીમે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ સત્તારૂલ ગફારે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ રહેમાનાનુદ દઈયા ને
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ કબીરૂલ અકબરે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ અલીમુલ અલ્લામો
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ શાફીઉલ કાફી
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ અઝીમુલ બાકી
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ સમદોલ અહદે
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ રબ્બીસ સમાવાત વલઅર્દો
લા ઈ લાહા ઈ લલ્લાહો સુબ્હાનલ ખાલેકીલ મશલુખાતે
... લેયલા વન્નહારા

૪

ઇ લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ્લ કરીમુલ હસનાતે
ઈ લાહા ઈ લહ્લાહો સુબ્હાનલ વલીયુલ હસનાતો
લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ સુબુરૂસ સત્તારે
ા ઈ લાહા ઈ લહ્લાહો સુબ્હાનલ ખાલેકુન નુરે
લા ઈ લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ ગનીયુલ મોઅજીઝે
લા ઇ લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ ફાઝેલુસ શકુરે
લા ઇ લાહા ઇ લહ્લા સુબ્હાનલ ગનીયુલ કદીમો
લા ઈ લાહા ઈ લહ્લ ા સુબ્હાનલ ઝીલજલાલુવલ સુબીનો
લા ઈ લાહા ઇ લહ્લાહા સુબ્હાનલ ખીલેસુલ મુખલીસો
લા ઇ લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ આદીકુલ વઆદો
લા ઇ લાહા ઈ લહ્લાહો સુબ્હાનલ હકકુલ મુબીનો
લા ઇ લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ ઝીલ કુવતીલ મતીનો
લા ઇ લાહા ઈ લહ્લાહો સુબ્હાનલ કવીયુલ અઝીઝો
લા ઇ લાહા ઇ લહ્લાહો સુબ્હાનલ હયુલ લઝી લાયમુતો
લા ઈ લાહા ઈ લહ્લાહો સુબ્હાનલ અહ્લામુલ ગયુબે
લા ઇ વાહા ઈ સુબ્હાનલ સત્તારૂલ ઉયુબો


realpatidar.com
realpatidar.com


realpatidar.com
realpatidar.com